

To,

The Manager-Listing National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza,C-1,Block-G, Bandra Kurla Complex (E), Mumbai-400051

NSE Symbol-VISESHINFO

Date: 9th November, 2023

The Manager-Listing BSE Limited Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code-532411

<u>Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended</u> <u>September 30, 2023 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure</u> <u>Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published today i.e., 9th November, 2023 in the Business Standard (English and Hindi) pertaining to Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023.

The same will be available on the website of the Company on the below mentioned link:

https://www.mpsinfotec.com/newsroom.html

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You,

Yours Faithfully For MPS Infotecnics Limited

GARIMA Digitally signed by GARIMA SINGH Date: 2023.11.09 11:45:09 +05'30'

Garima Singh Company Secretary

Regd. Office : 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-1 Ph.: 011-43571044, Fax: 011-43571047 E-mail : info@mpsinfotech.com

16



A GRAINY PICTURE

Measuring Covid's impact on poverty is crucial, but it has become a contested issue in the absence of government data

ASIT RANJAN MISHRA New Delhi, 8 November

W

STATEMENT OR

(under Regulation 33

PARTICUL

Total income from operations (net)

et Profit / (Loss) for the period (be

n October 2022, the World Bank put out a report saying nearly 56 million Indians might have plunged into extreme poverty in 2020-21 as a result of the economic shock induced by the Covid-19 pandemic, increasing the global tally by 71 million and making it the worst year for poverty reduction since World War II.

Last month, a year since that report came out, the Bank significantly adjusted its estimates, suggesting that the number of people who fell into poverty in India in 2020-21 was approximately 29.5 million. This indicates a less severe

impact of the pandemic on poverty than initially projected.

The impact of the pandemic on poverty and inequality in India has been a contested issue in the absence of government data. Estimation of the Covid impact on poverty is crucial for policy formulation as many analysts believe an increase in poverty in India has undone several years of progress on this front.

Though India is estimated to have made remarkable progress improving welfare and reducing poverty rates in recent decades, extreme poverty (at \$2.15 purchasing power parity) increased by two percentage points to 14.7 per cent in the pandemic year of 2020-21 before declining to 11.9 per cent in 2021-22.

Unaudited

8121.5

1143.14

Unaudited

12717.0

1504.3

Unaudited

464.6

(215.54

According to fresh estimates by the World Bank, extreme poverty further declined to 11.3 per cent in 2022-23, but that was still above the pre-pandemic level of 11.09 per cent recorded in 2018-19. It was a signal that further decline could beachallenge.

In the absence of Household Consumer Expenditure Survey data from the government after 2011-12, the multilateral lending institution used data from the Consumer Pyramids Household Survey (CPHS) conducted by the Centre for Monitoring Indian Economy to estimate poverty for India.

Meanwhile, in July this year, the NITI Aavog released the National Multidimensional Poverty Index (MPI), capturing

India's progress in reducing socioeconomic deprivation between the two surveys, National Family Health Survey-4 (2015-16) and NFHS-5 (2019-21). However, it clarified that the poverty estimates may not fully assess the effects of the Covid-19 pandemic on poverty, since more than 70 per cent of the data (NFHS-5) was collected before the pandemic.

According to the report, between 2015-16 and 2019-21, 135 million people escaped multidimensional poverty, which during these five years declined from 24.85 per cent to 14.96 per cent. Rural areas witnessed a faster decline in poverty than urban areas. However, the MPI, which measures simultaneous deprivations across the three dimensions of health and nutrition, education, and standard of living, is criticised for including administrative indicators such as bank accounts and electricity connections, trends for which are almost irreversible.

The great poverty debate

The impact of India's economic reforms of the 1990s on poverty reduction was widely debated in the early 2000s. Nobel Laureate Angus Deaton and economist Valerie Kozel christened it "The Great Indian Poverty Debate", noting that the claims had often been frankly political but there were also important statistical issues.

About 20 years later, "The Great Indian Poverty Debate II" has been fuelled by the lack of official household consumer expenditure survey data for the last 11 years, which has forced economists to use proxies to estimate the extent of poverty reduction in the last decade, with wildly varied results. The debate intensified recently with the pandemic-induced income shock believed to have reversed India's poverty reduction trajectory.


Pew Research Centre, in a report published in March, 2021, claimed around 75 million people in India fell into extreme poverty in 2020 because of the pandemic. In contrast, estimates published by Surjit Bhalla, Karan Bhasin and Arvind Virmani in April 2022 showed the poverty rate remained virtually unchanged during the pandemic period,

at 0.9 per cent (at \$1.9 PPP) due to the inkind transfers, such as free food grains, providing a social safety net. Economists Arvind Panagariya and

Vishal More, using the Period Labour Force Survey (PLFS) data in March this vear concluded that on the quarterly basis, rural poverty saw a modest rise only during the strict lockdown quarter of April-June 2020, but fell below the pre-

SLOW PROGRESS





Note: At purchasing power parity of \$2.15 per day per person Source: World Bank

Covid level soon after, and continued to decline.

An International Monetary Fund (IMF) working paper, published in July this year and using CPHS and PLFS data, concluded poverty increased drastically during the lockdown period, reaching more than four times of the 2019 average level based on the \$1.9 PPP line. Poverty also increased during the second wave of the pandemic, but the situation improved toward the end of 2021, and, as of the fourth quarter of **AN IMF WORKING** 2021, the number of PAPER, PUBLISHED

people under the \$1.9 line was practically IN JULY THIS YEAR AND backtothe prepandemic level. **USING CPHS AND PLFS** Analysis of PLFS data

DATA, CONCLUDED by the authors showed **POVERTY INCREASED** that more than 50 per cent of casual workers **DRASTICALLY DURING** lost their jobs in the THE LOCKDOWN second quarter of 2020. PERIOD "Although the rate of job loss was significantly lower for regular wage and self-employed, many people did not work in the second quarter of 2020. Regular wage workers were more protected because some could continue to receive wages despite their absence from work, but that was not the case for self-employed and casual workers," it said.

Reliefthroughtargeted subsidies

Both Bhalla as well as Panagariya argued that the free distribution of an additional 5 kg food grains and cash transfers arrested a sharper decline in poverty. Almost concurrently with the strict

> 125.20 111.26

111.26

739.10

210 50

lockdown, in April 2020, the government launched Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), which provided 5 kg of free food grains per person per month to 75 per cent of the rural and 50 per cent of urban households. This was on top of the usual provision of 5 kg monthly food grains per person at highly subsidised prices under the National Food Security Act (NFSA) to the same population.

The government was also quick to increase the allocations under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREGA) scheme, adding to the rural employment cushion. The expenditure on MGNREGA rose from ₹618 billion in 2018-19 to ₹717 billion in 2019-20, and further to ₹1.1 trillion in 2020-21. The government also transferred ₹500 each for three months to women Jan Dhan account holders during the pandemic.

The IMF working paper, which did not factor in the targeted benefits by the government, held that since the first wave of the pandemic led to a very sharp decline in income and consumption for most households, narrowing the support through income-based redistribution led

> to some households falling into poverty. "This highlights the fact that when faced with large shocks it is beneficial to provide support using schemes with broad coverage and the authorities' response to the pandemic through increasing support through the food subsidy was important in reducing poverty," it said.

It advised the governmentthat ongoing efforts to

improve targeting should continue. "Improving targeting can improve outcomes in terms of poverty reduction and enhance the effectiveness of public expenditure, which is crucial when fiscal space is limited," it said.

Prime Minister Narendra Modi on Saturday announced extension of the ongoing free ration under NFSA to continue for the next five years. Though its political dividends will be tested in the ongoing Assembly elections. it highlights the tough battle against poverty that lies ahead.

Special

ent and instruction

					_												
	(CIN: L29142	TN1961PLC	004568	ennai 600 116	D			612, V. K. Industrial Estate, 10-1 Tel. No. (022) 2307567	8129MH1 14 Pais Sti 7 / 23074	984PLC03 reet, Bycu 585, Fax	32008 ulla (West No. (022)), Mumba 2308002	22	1		
OF STANDA	LONE A	ND CONS	OLIDATE	D UNAUD	ITED FINA	NCIAL		EXT	Email : info@rishitechte FRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS F						BER 2023		
THE QUAR	RTER AND	HALF Y	EAR END	ED 30TH S	SEPTEMBE	R 2023											
THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2023		7 I			C	luarter Endec	d	Six Mont	hs Ended	Year Ended							
3 of the SEBI	(Listing Obl	igations an	d Disclosure	e Requireme	ents) Regulat	ions 2015)		Sr. No.	Particular	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023		
						₹ in Lakhs		NU.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
		STANDALONE			CONSOLIDATED			1	Revenue from Operations	2829.41	2596.22	2697.03	5425.63	5113.73	10683.66		
	QUARTER	HALF YEAR	QUARTER	QUARTER	HALF YEAR	QUARTER		2	Profit / (Loss) before Exceptional Item and Tax	33.70	56.24	21.86	89.94	52.06	125.20		
JLARS	ENDED	ENDED	ENDED	ENDED	ENDED	ENDED		3	Profit / (Loss) before Tax	33.70	56.24	21.86	89.94	52.06	125.20		
	30th Sept 2023	2023 30th Sept 2023 30th Sept 2022 30th Sept 2023 30th Sept 2023 30th Sept 2023			4	Profit / (loss) for the period	28.76	41.18	16.01	69.94	38.13	111.26					

otal Comprehensive Income for the period

Paid up equity share capital

(Face Value of ₹ 10/- each)

DHAMPUR	
Legacy for tomorrow	

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED Registered Office: Dhampur, District Biinor (U.P.) 246761

Tel: 011-41259400, E-mail: Investordesk@dhampursugar.com Website: www.dhampursugar.com, CIN: L15249UP1933PLC000511 POSTAL DALLOT NOTICE AND E VOTING INCODMATION

	FUSTAL BALLOT NUTICE AND E-VOTING INFO	KMATION.
appro	b is hereby given that Dhampur Sugar Mills Limited (the val of the Members of the Company by way of postal ballot the following items:	
S.no	Brief description of the Resolution	Type of Resolution
1	Appointment of Mr. Subhash Pandey as Whole Time Director of the Company.	Special

2 Alteration of the Articles of Association of the Company.

The Postal Ballot Notice inter-alia containing explanatory stateme

3	after Exceptional/Extraordinary items)	1143.25	1640.17	(215.44)	1143.14	1639.99	(215.54)
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	1143.25	1640.17	(215.44)	1143.14	1639.99	(215.54)
5	Total Comprehensive income for the period {Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax)}	1142.92	1640.65	(215.44)	1142.81	1640.47	(215.54)
6	Equity Share Capital	4695.16	4695.16	3089.48	4695.16	4695.16	3089.48
7	Reserves excluding Revaluation reserves	2986.88	2986.88	(5215.68)	2980.89	2980.89	(5220.52)
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinuing operations) (of ₹ 10/- each)						
	a) Basic	2.53	3.60	(0.79)	2.53	3.60	(0.79)
	b) Diluted	2.31	3.29	(0.79)	2.31	3.29	(0.79)

Unaudited

12717.

1504.4

Unaudited

464.6

(215.44

Unaudited

8121.5

1143.2

1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and half year ended 30th September 2023 unaudited financia results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulatements Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2023 are available on the Stock Exchange Websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.wsindustries.in)

2. The above unaudited results were reviewed by the Audit Committee on 8th November 2023, approved and taken on record by the respective Board at its meeting held on 8th November 2023, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

3. The Group financial results for the Quarter and half year ended 30th September 2023 are prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS prescribed under Section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder

4. Figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to this period's classifications

STANDALONE:

5. The operations for the current quarter is from the continuing business of turnkey projects from erstwhile operations and infrastructure operations

6 During the quarter under review

i. the company has converted 350000 warrants to equity shares fully paid on 5th July 2023.

ii. the company has converted 280000 warrants to equity shares fully paid on 9th August 2023.

iii, the company has converted 1420000 warrants to equity shares fully paid on 28th September 2023.

7. The company operates primarily in Infra segment and accordingly the company is not required to present segmen information

8. Previous period exceptional item includes impact of write back of liability to the tune of Rs. 847.53 Lakhs pertaining to discontinued Electro-porcelain products division's and continuing business of turnkey projects from erstwhile operations's long outstanding creditors and debtors with credit balances

9. Current year exceptional item includes the following items,

(i) Receipt of compensation from NHAI for Rs.53.68 Lakhs with regards to banglore land

(ii) Non refundable deposit net of GST amount Rs 82 Lakhs received resultant of leasing of Banglore land whereby giving easement right by way of giving access through the property, entire amount has been recognised as revenue during the quarter

10. The Company had participated in an e-auction on 09.03.2023 pursuant to which the Company stood as the successful bidder and purchased the property, being an auction under SARFAESI, a Sale Certificate was issued confirming the ownership and possession on 27.03.2023. Accordingly, the Company had remitted the sale consideration of Rs. 107.35 Crores. The Company is in the process of registering the Sale Certificate with Sub Registrar Office of Sunguyarchatram. Pending mutation in favour of the Company the purchase consideration paid amounting to Rs.107.35 crores has been classified as Capital advance in financial statement

11. Land at Porur to the extent of 6.53 Acres has been agreed to be transferred to subsidiary WSI Falcon Infra Projects Private Limited (formerly WS Insulators Private Limited) as a part of joint venture agreement entered for development of IT park and accordingly reclassified under asset held for sale as at 30 September 2023.

CONSOLIDATED:

12. The Consolidated financial statements relate to W.S. Industries (India) Limited (the Parent Company), and its Subsidiar Company. The Parent Company with its subsidiary constitute the Group.

13. The Subsidiary Company considered in the consolidated financial statements is M/s. WSI Falcon Infra Projects Private Limited (formerly WS Insulators Private Limited), whose country of incorporation is India and the percentage of voting powe by W.S. Industries (India) limited is 100%.

14. The Group is not required to provide Segment Reporting under the criteria specified in IND AS 108

Place: Chennai Date: 8th November 2023	SEYYADURAI NAGARAJAN CHAIRMAN DIN: 07036078	P
	for W. S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED	



1	Other Equity	-	-	-		-	2,310.50
8	Earnings per equity share (Face Value ₹ 10/- each)						
	(a) Basic	0.39	0.56	0.22	0.95	0.52	1.51
	(b) Diluted	0.39	0.56	0.22	0.95	0.52	1.51
Note	S:						

28.76

739.10

41.18

739.10

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023, filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2 These Besults have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held o 8th November 2023

3. These Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 and other recognised accounting practices and policies to th extent applicable.

The previous period's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary

5. The full format of the above Financial Results are available on the Stock Exchange website and on www.rishitechtex.com For RISHI TECHTEX LIMITED

> Abhishek Patel Managing Director DIN: 05183410

69.94

739.10

38.13

739.10

16.01

739.10

Bameshwar Media

MPS INFOTECNICS LIMITED

Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L30007DL1989PLC131190, Ph: 011-43571044, Fax:011-43571047; Email: info@mpsinfotec.com

Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023

	(INR IN Lacs)									
S. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Yea	Financial Year Ended				
		30-Sep-23 Un-audited		30-Sep-22 Un-audited	30-Sep-23 Un-audited	30-Sep-22 Un-audited	31-Mar-23 Audited			
1	Total income from operations (net)	20.93	10.74	11.75	31.67	26.52	154			
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities									
	before tax	(91.10)	(95.03)	(124.38)	(186.13)	(253.74)	(504.50)			
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities									
	after tax	(79.44)	(83.44)	(108.80)	(162.88)	(222.59)	(440.38)			
4	Total Comprehensive Income for the Period									
	(Net of Taxes)	(68.71)	(84.81)	(16.37)	(153.52)	(160.26)	(374.08)			
5	Equity Share Capital									
	(Face Value Rs.1/- per share)	37,744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37			
6	Reserves excluding Revaluation reserves									
	(i.e. Other equity)						5,726.98			
7	Earning Per Share (Basic)	(0.002)	(0.002)	(0.000)	(0.004)	(0.004)	(0.010)			
8	Earning Per Share (Diluted)	(0.002)	(0.002)	(0.000)	(0.004)	(0.004)	(0.010)			

Note:

Place: Mumbai

Date : 8th November, 2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements)Regulations.2015. The full format of the Quarterly Financial Results and available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com

The key standalone financial information are as under:

Particulars	U	Quarter Ende	d	Half Year	Financial Year Ended	
	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Total revenue from operations	20.93	10.74	11.75	31.67	26.52	154
Profit before tax	(91.09)	(95.03)	(124.38)	(186.13)	(253.73)	(504.50)
Profit after tax	(125.94)	(83.44)	(108.80)	(162.88)	(222.58)	(440.38)

3. The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 7, 2023. For MPS Infotecnics Limited

Sd/-Peeyush Kumar Aggarwal Chairman

DIN:00090423

for remote e-voting is available and may be downloaded from the Company's website at www.dhampursugar.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com

In compliance with the MCA Circulars, the electronic dispatch of Postal Ballot Notice appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited (CDSL") and whose e-mail addresses are available with the Company" and Depositories as on 03rd November 2023 ("cut-off date").

Accordingly, physical copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot form and ore-paid b siness reply envelope are not being sent to the Members for this postal ballot The electronic dispatch of Postal Ballot Notice has been completed on 08th

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limite (NSDL) for the purpose of providing remote e-voting facility to its members. The detailed procedure for remote e-voting forms part of the 'Notes' section to the Notice.

Members desiring to exercise their vote through the remote e-voting process are requested to carefully read the instructions indicated in the Notice and record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) by following the procedure as stated in the 'Notes' section of this Notice for casting of votes by remote e-voting

Commencement of e-voting	9:00 A.M. (IST) on Tuesday, November 14, 2023
End of e-voting	5:00 P.M. (IST) on Wednesday, December 13, 2023

Remote e-Voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and will not be lowed beyond the said date and time.

During this period, Members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date, i.e. (03rd November, 2023), shall cast their vote electronically. The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Member(s) as on the cut-off date. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently

As per the SEBI circular dated December 9, 2020, on e-voting facility provided by Listed Companies, e-voting process has been enabled to all the individual Demat account holders, by way of a single login credential, through their Demat accounts/websites of Depositories/Depository Participants (DPs) in order to increase the efficiency of the voting process. Members are advised to update their mobile number and email address r respective DPs in order to access e-voting facility. Detailed instructions for login methods of remote e-voting are provided in the Notice of Postal Ballot.

The Board of Directors has appointed Mr. Saket Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No.: F4229), Partner, M/s GSK & Associates, Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot, through e-voting process, in a fair and transparent manner

After completion of scrutiny of the votes, the Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any person authorized by him. The results of the voting conducted through Postal Ballot (through the remote e-voting process) along with the Sorutinizer's Report will be announced by the Chairman or such person as authorized on or before 15th December 2023. The same will be displayed on the website of the Company: www.dhampursugar.com, the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com and shall also be communicated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), where the Company's Equity Shares are listed and be made available on their respective websites viz. www.bseindia.com and india.com. The Resolution, if approved, will be taken as having been passed effectively on the last date of remote e-voting i.e., 13th December 2023

In accordance with the MCA Circulars, the Company has made necessary arrangement for the Members to register their e-mail address. Members who have not registered heir e-mail address are requested to register the same


(i) with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts, the shares are held in electronic form, and

(ii) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at www.dhampursugar.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Alankit Assignments Limited Registrar and Share Transfer Agent. Unit Dhampur Sugar Mills Limited, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi 110055, Email Id- rta@alankit.com

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or end a request at evoting@nsdl.co.in.

For	Dhampur	Sugar	Mills	Limited	
		-		Cal	

	Aparna Goel
Place: New Delhi	Company Secretary
Date: 08.11.2023	M. No.: 22787
















www.mpsinfotec.com

The key standalone financial information are as under

10

		eocrotaria G	thahitachaas	re com			
~	वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल			561 56 X	× 0 - ×		Total revenue from operations Profit before tax
सत	म्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष	हतु अनकाक्षत				E	Profit after tax
			(ক. শি	मेलियन में, सिवाय	प प्रति शेयर डेटा)	3	. The above results have been
क्र.	विवरण	तिमाही	तिमाही	अर्द्ध वर्ष	अर्द्ध वर्ष		approved by the Board of Direc
सं.		समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त		
		<u>30/09/2023</u> (अनंकेक्षित)	30/09/2022 (अनंकेक्षित)	<u> 30/09/2023</u> (अनंकेक्षित)	30/09/2022 (अनंकेक्षित)	Р	lace : New Delhi
1.	परिचालन से कुल आय	2,849.25	3,164.56	5,515.16	6,103.24		ate : 07/11/2023
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	75.45	97.79	198.38	159.29		
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	847.05	97.79	969.98	159.29		
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	722.16	35.28	815.15	38.97		बकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडि
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है),	734.18	14.45	845.94	57.59	झ के वि	पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमि समें इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप ' स्तंभ नंबर 2 में वर्णितानुसार उधारक क्या है तथा जबकि आर्सिल (''आर्सिल
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.68	187.68	187.68	187.68		ग्ण खाता∕तों से संबंधित वित्तीय प , तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावय
7.	आस्तियों एवं देयताओं के विवरण के अनुसार अन्य इक्विटी				×	मां एव	ांग सूचनायें निर्गत की थी, जिनमें स्तंग वं सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिधि
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) —					क क्र	
	(क) मूलः (ख) तनुकृतः	38.48 38.38	1.88 1.88	43.43 43.33	2.08 2.08	1.	
2)	उपरोक्त अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम अंकेक्षण समिति किए गए हैं और उसके उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा नवम्बर 07 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण 3 एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए सितम्बर 30,2023 को समाप्त प्रारूप का संक्षित्त विवरण है।	, 2023 को सम्प गपेक्षाए) विनियम	न्न इसकी बैठक 11वली, 2015 व	में अनुमोदित वि हे विनियम 33	रूए गए हैं। के तहत स्टॉक	2	श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीम
	समीक्षा अवधि के दौरान, दि हाई—टेक गियर्स कनाडा इन्क	('THGCA')	कनादा में पचा	जनरत पर्णतया	स्वाधिकत स्टेप		श्री अनिल भगत /श्री रमन कुमार
	राज्या भाग कर्मपनी ने अगस्त 31, 2023 को 1787377 औन डाउन सहायक कम्पनी ने अगस्त 31, 2023 को 1787377 औन का प्लाण्ट अवस्थित है, में अवस्थित मूमि एवं मवन के लिए सेल आय में, सेल एवं लीज बैक सौदे से अर्जित, Ind-AS के प्रावधाने	टारियो इन्क. के एवं लीज बैक (साथ गुएल्फ, ओ 'S&LB') अनुबंध	न्टारियो, कनाड व किया है अपव	ा, जहां THGCA वादात्मक मदों से		प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल व वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. उ द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में
	की गई है। यह सौदा परिचालन को प्रभावित किए बिना पूरा किर	म गया था।	4. CO. 7. 7. 7. 7	.0011101414		3.	परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट दि
	सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख जानकारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है :) के अनुसरण मे	ां कम्पनी की प्रग्		नंकेक्षित वित्तीय रू. मिलियन में)		परनामी / श्री बृजेश कुमार कटारि धमीजा / श्री अनिल भगत / श्री
	2	तिमाही	तिमाही	अर्द्ध वर्ष	रू. ।नालयन न) अर्द्ध वर्ष		प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल क
	विवरण	समाप्त	समाप्त	जब्द् पप समाप्त	जब्दू पप समाप्त		वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. र
		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2022		प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी ब
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनकेक्षित)		तः, स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार
	चालन से आय और अन्य आय	2,042.68	2,192.26	3,872.99	4,146.15		स सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों
	पूर्व लाभ	138.40	213.19	274.30	383.74		हमतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार व अनुसार संबंधित ऋण खाता के संव
	पश्चात लाभ	100.70	147.25	203.76	255.89		ल राशि, जो कि भुगतान की तिथि
	सितम्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु वित					सं	पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनाः
	(www.nseindia.com और www.bseindia.com) तथा कम्प	ना का वबसाइट	(www.thehite	-		नि	र्धारितानुसार अन्य विधियों से सूचना
					निदेशक मंडल		गन : गुड़गांव
				G 85-CO	गियर्स लिमिटेड	l l fe	नांक : 09—11—2023
							147 : 09-11-2023
					हस्ता./- दीप कपूरिया		
	ान : नई दिल्ली थे : नवम्बर 07, 2023			2	हस्ता./-		पार्थ : 08-11-2023 पार्थ : 10-2023 पंजीव्हृत कार्यालय : दि रू सीआईएन - U65999M

CIN: L29130HR1986PLC081555

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24,25,26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरूग्राम-122050, हरियाणा

bala researce from operations 20.33 10.74 11.75 11.67 20.52 154 154 or for the bore is a first of the bore is a			on-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
िर्तत सीका कि कार्य सिंहा कि कार कार्य कार्								
The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors attis meeting held on November 7, 2023. For MPS Infotencies Limited Sd-Peeyush Kumar Aggaraat ace : New Delhi to 17/11/2023 Peeyush Kumar Aggaraat Chalamaa Dirk:00059423 Dirk Kumar Aggaraat					1 /			(
For MPS Inducents Linked Sd Pegush Kunzd Aggawa ace : New Delhi te : 07/11/2023 Still Equation State Pegush Kunzd Aggawa ace : New Delhi te : 07/11/2023 Still Equation State Pegush Kunzd Aggawa Chairman DIN:00090423 Still Equation State Pegush Kunzdra (State Chairman DIN:00090423 Still Equation State Pegush Kunzdra (State Chairman DIN:00090423 Still Equation State Pegush Kunzdra State Pegush Kunzdr			• • • • • • • • •	• • •	• • • • • •			• • • • •
ae : New Delhi te : 07/11/2023 Diversion of the second s					Directors by			
101: E. C. C.I. 110: E. C.C.I. 110: E. C.C.I.						Pe	eyush Kum	nar Aggarwal
विः एसंट किंग्द्रवरान कंपनी (इंडिया) तिमिदेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंत' के रूप में संपत्ति) एक एसंट किंग्द्रवरान कंपनी है जो मो आतियिय 1966 के तहत निगमित तथा विर्ताय परिसपरियों के प्रतिशुतिकरण एव पुनीमेंभा तथा प्रतिपूर्ति हिंग उपवर्क ने आजिय 2002 (यहां इसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओ/ गारंदरी / सह-यातित्वापरकों एवं सहातिकर्ताओं ने इंडराइड के तिनिदेड से वरण प्राप या है तथा जबकि आसिंत ('आसिंत-एससेपीएय का आवेग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, विलिय दा से व्य प्राया के क्ष पा खाता/ तो से संबंधित विर्ताय परिसपरियों का अविग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, व्य ज्यादाता के क्ष वाचा प्रतिगृति दित (प्रतनंत) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज अविनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतत जवियों के प्रयोगानंतर, य पुरावरी केर्गत के 80, तिमरे संस स 2 नये वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओ / रास:-उपारकर्ताओ / गास:-वारित्या क्वी सहनतिकर्ताओं को सुवना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्रता है तरि ही सकी है। प्रतारात के का नाग / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार किंग्त के तार 2 के वर्गतिया का जाम / प्रवार की का नाम / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार की का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति कि का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति (खनुसूवी परित्र) : आवासीय संपत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 वे 519/11 के 1910-2023 के वुतो का नामन है तथा निम्मनुशार परिसीमित है : उसररू निजी सड़क, दक्विण – मकान, पूर्व – आर सी खुरोते का मकान परित्रम के तथा मिल कोंप्र प्रवत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 व 519/11 के 1910-2023 के अनुवा पर वानिस्तार जी स्व तथा सामल के संपति के समरत वह मान तथा आं तो ने एससीमा / का 11,864.6551/ औ त्र के स्व कि विर्त सिकिद्र (जी एक समनती नई सामरत वह मान तथा आं तो परित्र के पर्य हत्य उज्जा ही सिक नामा प्रवट्य औ तीत मन तर्त शिर्व प्रवह्य विगिदेड / जी एक प्रवत्ना मार्करित के साम तथा आं को परासीओ प्रति संवर 500 नती ने कर ती लि ता 10,2023 के जुतुवा परित्र कि क्व सुच सुव तिमि से से सह या सात वह मान तथा आं की परित्रकी प्रवट वा कर कि ते कि तावा उपिर्य प्रवत के क्व प्र खुत							D	
विः एसंट किंग्द्रवरान कंपनी (इंडिया) तिमिदेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंत' के रूप में संपत्ति) एक एसंट किंग्द्रवरान कंपनी है जो मो आतियिय 1966 के तहत निगमित तथा विर्ताय परिसपरियों के प्रतिशुतिकरण एव पुनीमेंभा तथा प्रतिपूर्ति हिंग उपवर्क ने आजिय 2002 (यहां इसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओ/ गारंदरी / सह-यातित्वापरकों एवं सहातिकर्ताओं ने इंडराइड के तिनिदेड से वरण प्राप या है तथा जबकि आसिंत ('आसिंत-एससेपीएय का आवेग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, विलिय दा से व्य प्राया के क्ष पा खाता/ तो से संबंधित विर्ताय परिसपरियों का अविग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, व्य ज्यादाता के क्ष वाचा प्रतिगृति दित (प्रतनंत) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज अविनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतत जवियों के प्रयोगानंतर, य पुरावरी केर्गत के 80, तिमरे संस स 2 नये वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओ / रास:-उपारकर्ताओ / गास:-वारित्या क्वी सहनतिकर्ताओं को सुवना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्रता है तरि ही सकी है। प्रतारात के का नाग / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार किंग्त के तार 2 के वर्गतिया का जाम / प्रवार की का नाम / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार की का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति कि का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति (खनुसूवी परित्र) : आवासीय संपत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 वे 519/11 के 1910-2023 के वुतो का नामन है तथा निम्मनुशार परिसीमित है : उसररू निजी सड़क, दक्विण – मकान, पूर्व – आर सी खुरोते का मकान परित्रम के तथा मिल कोंप्र प्रवत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 व 519/11 के 1910-2023 के अनुवा पर वानिस्तार जी स्व तथा सामल के संपति के समरत वह मान तथा आं तो ने एससीमा / का 11,864.6551/ औ त्र के स्व कि विर्त सिकिद्र (जी एक समनती नई सामरत वह मान तथा आं तो परित्र के पर्य हत्य उज्जा ही सिक नामा प्रवट्य औ तीत मन तर्त शिर्व प्रवह्य विगिदेड / जी एक प्रवत्ना मार्करित के साम तथा आं को परासीओ प्रति संवर 500 नती ने कर ती लि ता 10,2023 के जुतुवा परित्र कि क्व सुच सुव तिमि से से सह या सात वह मान तथा आं की परित्रकी प्रवट वा कर कि ते कि तावा उपिर्य प्रवत के क्व प्र खुत								
विः एसंट किंग्द्रवरान कंपनी (इंडिया) तिमिदेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंत' के रूप में संपत्ति) एक एसंट किंग्द्रवरान कंपनी है जो मो आतियिय 1966 के तहत निगमित तथा विर्ताय परिसपरियों के प्रतिशुतिकरण एव पुनीमेंभा तथा प्रतिपूर्ति हिंग उपवर्क ने आजिय 2002 (यहां इसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओ/ गारंदरी / सह-यातित्वापरकों एवं सहातिकर्ताओं ने इंडराइड के तिनिदेड से वरण प्राप या है तथा जबकि आसिंत ('आसिंत-एससेपीएय का आवेग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, विलिय दा से व्य प्राया के क्ष पा खाता/ तो से संबंधित विर्ताय परिसपरियों का अविग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, व्य ज्यादाता के क्ष वाचा प्रतिगृति दित (प्रतनंत) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज अविनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतत जवियों के प्रयोगानंतर, य पुरावरी केर्गत के 80, तिमरे संस स 2 नये वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओ / रास:-उपारकर्ताओ / गास:-वारित्या क्वी सहनतिकर्ताओं को सुवना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्रता है तरि ही सकी है। प्रतारात के का नाग / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार किंग्त के तार 2 के वर्गतिया का जाम / प्रवार की का नाम / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार की का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति कि का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति (खनुसूवी परित्र) : आवासीय संपत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 वे 519/11 के 1910-2023 के वुतो का नामन है तथा निम्मनुशार परिसीमित है : उसररू निजी सड़क, दक्विण – मकान, पूर्व – आर सी खुरोते का मकान परित्रम के तथा मिल कोंप्र प्रवत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 व 519/11 के 1910-2023 के अनुवा पर वानिस्तार जी स्व तथा सामल के संपति के समरत वह मान तथा आं तो ने एससीमा / का 11,864.6551/ औ त्र के स्व कि विर्त सिकिद्र (जी एक समनती नई सामरत वह मान तथा आं तो परित्र के पर्य हत्य उज्जा ही सिक नामा प्रवट्य औ तीत मन तर्त शिर्व प्रवह्य विगिदेड / जी एक प्रवत्ना मार्करित के साम तथा आं को परासीओ प्रति संवर 500 नती ने कर ती लि ता 10,2023 के जुतुवा परित्र कि क्व सुच सुव तिमि से से सह या सात वह मान तथा आं की परित्रकी प्रवट वा कर कि ते कि तावा उपिर्य प्रवत के क्व प्र खुत								
विः एसंट किंग्द्रवरान कंपनी (इंडिया) तिमिदेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंत' के रूप में संपत्ति) एक एसंट किंग्द्रवरान कंपनी है जो मो आतियिय 1966 के तहत निगमित तथा विर्ताय परिसपरियों के प्रतिशुतिकरण एव पुनीमेंभा तथा प्रतिपूर्ति हिंग उपवर्क ने आजिय 2002 (यहां इसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओ/ गारंदरी / सह-यातित्वापरकों एवं सहातिकर्ताओं ने इंडराइड के तिनिदेड से वरण प्राप या है तथा जबकि आसिंत ('आसिंत-एससेपीएय का आवेग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, विलिय दा से व्य प्राया के क्ष पा खाता/ तो से संबंधित विर्ताय परिसपरियों का अविग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, व्य ज्यादाता के क्ष वाचा प्रतिगृति दित (प्रतनंत) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज अविनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतत जवियों के प्रयोगानंतर, य पुरावरी केर्गत के 80, तिमरे संस स 2 नये वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओ / रास:-उपारकर्ताओ / गास:-वारित्या क्वी सहनतिकर्ताओं को सुवना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्रता है तरि ही सकी है। प्रतारात के का नाग / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार किंग्त के तार 2 के वर्गतिया का जाम / प्रवार की का नाम / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार की का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति कि का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति (खनुसूवी परित्र) : आवासीय संपत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 वे 519/11 के 1910-2023 के वुतो का नामन है तथा निम्मनुशार परिसीमित है : उसररू निजी सड़क, दक्विण – मकान, पूर्व – आर सी खुरोते का मकान परित्रम के तथा मिल कोंप्र प्रवत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 व 519/11 के 1910-2023 के अनुवा पर वानिस्तार जी स्व तथा सामल के संपति के समरत वह मान तथा आं तो ने एससीमा / का 11,864.6551/ औ त्र के स्व कि विर्त सिकिद्र (जी एक समनती नई सामरत वह मान तथा आं तो परित्र के पर्य हत्य उज्जा ही सिक नामा प्रवट्य औ तीत मन तर्त शिर्व प्रवह्य विगिदेड / जी एक प्रवत्ना मार्करित के साम तथा आं को परासीओ प्रति संवर 500 नती ने कर ती लि ता 10,2023 के जुतुवा परित्र कि क्व सुच सुव तिमि से से सह या सात वह मान तथा आं की परित्रकी प्रवट वा कर कि ते कि तावा उपिर्य प्रवत के क्व प्र खुत								
विः एसंट किंग्द्रवरान कंपनी (इंडिया) तिमिदेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंत' के रूप में संपत्ति) एक एसंट किंग्द्रवरान कंपनी है जो मो आतियिय 1966 के तहत निगमित तथा विर्ताय परिसपरियों के प्रतिशुतिकरण एव पुनीमेंभा तथा प्रतिपूर्ति हिंग उपवर्क ने आजिय 2002 (यहां इसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओ/ गारंदरी / सह-यातित्वापरकों एवं सहातिकर्ताओं ने इंडराइड के तिनिदेड से वरण प्राप या है तथा जबकि आसिंत ('आसिंत-एससेपीएय का आवेग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, विलिय दा से व्य प्राया के क्ष पा खाता/ तो से संबंधित विर्ताय परिसपरियों का अविग्रहण किंपा है, और जबकि आसिंत ने अतियेग से कं अंतर्गत प्रतिश, व्य ज्यादाता के क्ष वाचा प्रतिगृति दित (प्रतनंत) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज अविनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतत जवियों के प्रयोगानंतर, य पुरावरी केर्गत के 80, तिमरे संस स 2 नये वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओ / रास:-उपारकर्ताओ / गास:-वारित्या क्वी सहनतिकर्ताओं को सुवना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्रता है तरि ही सकी है। प्रतारात के का नाग / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार किंग्त के तार 2 के वर्गतिया का जाम / प्रवार की का नाम / आय खाता सं क्वा का नाम / प्रवार की का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति कि का नाम / अय खाता सं प्रविद्य संपति (खनुसूवी परित्र) : आवासीय संपत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 वे 519/11 के 1910-2023 के वुतो का नामन है तथा निम्मनुशार परिसीमित है : उसररू निजी सड़क, दक्विण – मकान, पूर्व – आर सी खुरोते का मकान परित्रम के तथा मिल कोंप्र प्रवत्ति के समरत वह भाग तथा अंघ को मकान नंबर 500 नती नं नंबर 519/11 व 519/11 के 1910-2023 के अनुवा पर वानिस्तार जी स्व तथा सामल के संपति के समरत वह मान तथा आं तो ने एससीमा / का 11,864.6551/ औ त्र के स्व कि विर्त सिकिद्र (जी एक समनती नई सामरत वह मान तथा आं तो परित्र के पर्य हत्य उज्जा ही सिक नामा प्रवट्य औ तीत मन तर्त शिर्व प्रवह्य विगिदेड / जी एक प्रवत्ना मार्करित के साम तथा आं को परासीओ प्रति संवर 500 नती ने कर ती लि ता 10,2023 के जुतुवा परित्र कि क्व सुच सुव तिमि से से सह या सात वह मान तथा आं की परित्रकी प्रवट वा कर कि ते कि तावा उपिर्य प्रवत के क्व प्र खुत			आंग व	मचना				
मां अधिनियम 1988 के तहत निममित तथा वितेय परिसानिय के प्रतिनुकिरुण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हिंग प्रतत अधिनेयम २००२ (यहां में इसके या 'अधिनियम' के रूप में संवर्मित) की धारा 2 के अंतर्गत मारतीय दिजर्त के के साथ पंजीवृत है), और जबकि मीधे दिए गए घार्ट स्तम नंदर 2 में वर्षानी' व्याप्त संवर्मितों) गैरारदे / सर- यादित्याराण एवं प्रतिभित्त के इंडसड़ के किसिटेड में का जिम्प् या है तथा जबकि आसित 'आसित-परामीपिएस-आई-ट्रस्ट' के एकमाब ट्रस्टी के रूप में) में भीदे दिए गए घार्ट के संतम नंबर 1 में छल्तविका ण खाता/तों से संबंधित वित्तीय परिपारियों का अधिवरण किया है, और जबकि आसित ने अधिनियम के अंतर्गत प्रतिमृत ऋगपाता के रूप या वित्ता विति (यदने) नियामानते 2002 के निमम 3 के साथ पवित उक्त अधिनियम की घारा 12 (2) के अंतर्गत प्रतिमृत ऋगपाता के रूप पहासविकर्ताओं के सुरूप ती विते के 20 दिवसों के अंदर सुरानाओं में अंकिर परि तथा था शि पर नियत भावी व्याज का प्रतिमुगतान करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से सुवनाये प्राप्त ही नहीं हो सकी है। उधारकर्ता का नाम / सर-उधारकर्ता का नाम / सिकताकर्ता के का नाम/श्रहण-खारात से 'सर साग तथा आंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 510/11 व 519(7/11 के का महिता प्रतिस्ति तत्म गादेन, गुरायां ह शियाणा – 12001 में सिला है, जिसकी मा 448 वर्ग नज है, जो श्री रम्म कुम्प प्रस्तानी से विवर एवं उपसित, तत्म गादेन, गुरायां ह शियाणा – 12001 में सिला हे के स्तर मा नया आंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 510/11 व 519(7/11 के प्रक् प्रतिक्रम प्रावदि, वित्तिदेद/जी एस परनानी गर्कटिंग कंपनी/श्री त्रियुवन कुमार परनानी / श्री क्षेत्रेम पार्व श्रियहेत वितिदेद /जी एस परनानी नर्क कि समस्त वह मान तथा आंश जो परनतीआं परि हंद कठ 51.1 विवत तथा उपसिय प्रतिक्रम के तथा दिवा वित्ति प्रयत्ति के सार वह साग तथा आंश जो परनतीआ है से क्यन के आय प्रयद्द से युद्धार ती तरिव स ता श्री परितन कुमार परनानी में क्रेवेन मात श्री पर सान कुमार परपानी में अलित कुमार परनानी श्री केपुवन कुपार है, तेक्टर – आंत्रक जुप्ती स्वरी, ही संबलक की की के संसत वह मान तथा आंश जो परसतीओं तर्त स्व रठ 5.1 विवत तथा उपसिय है, तेक्टर – आंतक जुप्तु कि साहदे ही किरिडेड / जी, एल परनानी गर्कटिंग कंपनी श्रे सित्त कुमुत कुमाय प्रयद्द ही तिरेड करान है, तेक्टर मा कुम्य	बकि	एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां		U-	के रूप में संद	र्भित) एक एसे	ट रिकंस्टक्श•	न कंपनी है जो
स्तमं नंबर 2 में वर्णितनुमार ज्यारकर्ता / अंधककर्ताओं / मारंटरों / सह–यातिव्याक्षों पूर्व सहमाकित्ताओं में इंडसइंड के लिमिटेड से ऋण प्राप या है तथा जबकि आसिल ('आसिल-एसभीपेएस-आई-ट्रटर' के एकमात्र ट्रटरें) के राम भे ने नीवे दिए गए चार्ट के स्तम नंबर 1 में उदिल्यित ण खाता / तो संबंधित तिवी प परिपासित्यों का अधियण किया है, और जबकि आसिल ने अधिनियम के अंतर्गत प्रमित्त क्रेयर मां क लया प्रतिभूति सिर (प्रबरंग) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पतित एक अधिनियम की सारा 13 (2) के अंतर्गत प्रवर शकियों के प्रयोगातंगर्त, ग सूचनतिर्जाकों को सूचना की तिथि से 00 दिवसों के अंदर सूचनाओं / सह–जायरकर्ताओं / सर–वायतव्यारकों कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विनिन्म करणों से सूचनायें प्राप्त ही नहीं हो सकी हैं। जिपलपी हैबिटेशन प्रार्डये लिमिटेड (फारकर्ता) / श्री निमुवन कुमार परनामी / श्री करी रही रा प्र राखनारकर्ताकों के कामा/ श्रम्ट च्यारकर्ता का नाम / बिर्ण व्याप्त जे त्राप्त के सुचना के सुचना की तिथि से 00 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मावी व्याज का प्रतिभुत्ताना करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विनिन्म करणों से सुचनायें प्राप्त ही नही हो सकी हैं। जिरलपी हैबिटेशन प्रार्डये लिमिटेड (फारकर्ता)/श्री निमुवन कुमार परनामी/श्री अनित कुमार ए उ 37,118,794/ 0-0-क्व 208 कु कुमुसर प्र सिय ते (अनुसूची संपति): आवासीय संपत्ति के समस्त यह माग तथा अंश जो मकान नंबर 300 नदीन नंतर है जो श्री रा 1 1 9,197/11 के रुप में थिवर (र वेवयखत, रात नार्डन, गुडगा हरियागा – 122001 में खित है जिसको माप 448 वर्ग नज है, जो श्री सम कुमार परनामी श्री खेश कुमार कटारिय / श्रीमती अंतु परनामी / श्री अतिक कुमार परनामी/श्री प्रुवत कुमार परनामी / श्री अंधे कुमार कटारिय / श्रीमती संतु प्र परित्ति है : उत्तर– निजी सडक, दीधेण– नकान, पूर्व– कार. पी चतुरी श्री अंधित न मात श्री सिक्त सुच्या वॉफियिक संपत्ति के समस्त यह माग तथा आं जो एससीओ तोंट नंबर 80–51 में दिवत ती वायरिया श्रीसित स्वन न ता रहे के स्वर सुच सुच हिनिटेड /जी एल परनामी मार्कटिंग कंपनी श्री प्रियुन सुमार प्र सित है. किसक्र प्रार्ड दे दिलिटेड (स्वय प्र याद्र श्रै संदट, आंवड प्र क्रियि कि स्वय परनाकी के क्यमरत वह माग तथा आं जो एससीकी सर्वर परनानी ग्रिय है 1940 कि 200–551 में वान तर हो, जो ने	पनी	अधिनियम 1956 के तहत निगमित तथा वित्तीय परिर	नंपत्तियों के प्रति	भूतिकरण एवं	पुनर्निर्माण तथा	प्रतिभूति हित	प्रवर्तन अधिनि	यम 2002 (यह
या है तथा जबके आसिंल ('आसिंल-एसवीभीएस-आई-ट्रस्ट'' के एकमात्र ट्रस्टी के रूप मे) ने नीचे दिए गए चार्ट के स्तंम नंबर 1 में उल्लिखित ण खात/तो से संबंधित विशीम परिसंपतियां का अधियषण किया है, और जबकि आसिंल ने अधिनियम के अंतर्गत प्रतिमूत क्रण्यता के रूप तथा प्रतिपूर्ति (हि (प्रवनंन) नियामताती 2002 के नियम 3 के साथ परित जफ अविनियम के बारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिम् क्रण्यता के क्रय तथा प्रतिपूर्ति (हि (प्रवनंन) नियामताती 2002 के नियम 3 के साथ परित जफ अविनियम के बारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिम क्रय्य के क्रया गया था, किंदु उनमें से कुछ को विभिन कारणां से युवनायो प्राप्त ही ही हो सकी है। उक्तर या था, किंदु उनमें से कुछ को विभिन कारणां से युवनायों प्राप्त ही हो हो सकी है। उक्तर या था, किंदु उनमें से कुछ को विभिन कारणां से युवनायों प्राप्त ही हो हो सकी है। उक्तर या था, किंदु उनमें से कुछ को विभिन कारणां से युवनायों प्राप्त हो ही हो सकी है। उक्तर वा धा, किंदु उनमें से कुछ को विभिन कारणां से युवनायों प्राप्त ही नहीं हो सकी है। उक्तर वा धा, किंदु उनमें से कुछ को विभिन कारणां से युवनायों प्राप्त हो को किंग निया प्राप्त हिंग के स्वर का नाम / विक्रेश है किरिदे (क्रयुर्प्र संपति) के काम/क्रयर खता सं विगर वे क्रया नामान्युयर परिक्तानि है : उत्रर- निजे सडक, दक्किप– मकान, पूर्व– आर, प्रा, विप्ते के माकन में रवाविक्यारण में है तथा निम्मुस्तर परिक्ति है : उत्रर- निजे सडक, दक्किप– मकान, पूर्व– अत्र , यी चतुर्वरी का मकान पश्चिम– विजय आहूजा का घर। वि एस डेकलर्म प्राव्हेट लिमिटेड/ जी. एस. परनामी मॉकेटिंग कंपनी/श्री त्रिवुवन बुगार परनामी / श्री कुवेस कुसा कटारिया / श्राप्ती के प्राप्तनी के सासत वह मात तथा अंश जो एससीओ तांट नंबर 20–51 में विवत क्रा जपयिव्द ह, संकटन आख ज्राह्य विमिरेड/ जी, एस. परनामी मॉकेटिंग कंपनी/श्री त्रिवुवन बुगार परनामी / श्री कुवेक्य क्राफ क्रया खाणिय कॉमले के पर सामि के सासत वह मात तथा आ जो ला एससीओ तांट नंबर 20–51 में विवत का जपयिव्द ह, संवटन आख ज्राह्य काम्य कर्या के क्यारमं प्राव्द हे लिमिटेड कंपनामी म्राकेटिंग कंपनी / श्री त्रिवुवुव खुमा हिया है विवत ही जाव की माय 272.72 वर्ग नीटर की जो मैसर्प प्राव्ह ही लिमिटेड / जी एस परनामी मॉकेटिंग कंपरता ने प्रार त्र प्रे रास्तरी कि स्वरा है								
वधा प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अभिनियम को वारत 13 (2) के अंतर्नत प्रदत्त शकियों के प्रयोगांतर्गत, य सुवानवि निर्गत की थी, जिनमे रसम स. 2 मते वर्णितानुसार उधारकर्ताओं / साल-उधारकर्ताओं / पारंटर्स / वंधककर्ताओं / संह-वायितव्यारकों कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से सुवनायें प्राप्त ही नहीं हो सकी हैं। प्रयासकर्ता का नाम / सह-प्रधारकर्ता के जाम / प्रवित्तनी को राष्ट्रन में से कुछ को विभिन्न कारणों से सुवनायें प्राप्त ही नहीं हो सकी हैं। प्रयासकर्ता की राष्ट्र-वार सिन्दे (उधारकर्ता)/श्री त्रियुवन कुमार परनामी/श्री अगित कुमार प्रवित्तनी प्रविदेशन प्राइवेट लिनिटेड (उधारकरर्ता)/श्री त्रियुवन कुमार परनामी/श्री अगित कुमार प्रवित्तन संपति (अनुयूसी संपति) : आवारीय संपत्ति के समस्त यह भाग तथा ओरा जे मकान नंवर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519/11 जे 519/11 जे 1619/11 के समस्त यह भाग तथा औरा जे मकान नंवर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519/11 जे 1619/11 के 1817/11 के स्वानिक्यारण में 2001 मिं दिवा ही जि/11 के 1917/11 के स्वानिक्यारण में है तथा तिभावी, जुमुद्दास सिन्तने प्रवत्त स्वरिमिति है : उत्तर– निजी सडक, दक्षिम– मकान, पूर्व– आर. पी. यतुर्वे का मकान संवित्त तथा उपरिकत, रतन नामक्या प्रवित्तने जिले किंतन कुमार परनामी /श्री त्रियुवन कुमार परनामी श्री देख तथा विपरिकत, रतन नामक्या परिवामीनि तै : उत्तर– निजी सडक, दक्षिम– मकान, पूर्व– आर. पी. यतुर्वे का मकान, पश्चित संपति (अनुयूसी संपति) : आव तावाणियक संपति के समस्त यह भाग तथा आंरा जो एसरीडो लॉट नंबर 50-51 में दिवत तथा जापरिक श्री अवित मगत /श्री रमन कुमार परनामी प्रवित्त वार्णवरिक संपत्र प्रवृदेट लिनिटेड /जी एल. परनामी माकेटिंग कंपनी /श्री त्रियुवन कुमार स्वत्ता दिया में दिवत दिवा तथा वापरिकते माय ट्रार्ट यां मीटर है, जो नैसरं म्रविर या श्रमित के माद वह भाग तथा आंरा जो एसरीडो सर्ता सर्वा स्वत्त किरिय प्राइवेट लिनिटेड /जी रहे स्वर की मई है। पत्नानी पत्री अत्र कुमार व्रवति की निर्वे प्रवत प्रवत्त के स्वति कुमार परनामी /श्री त्रियुवन कुमार हे, संवटर – को क्रियर प्राइवेट लिनिटेड /जी एल. परनामी माकेटिंय कंपनी /श्री त्रियुवन कुमार यात्ता के नई क्रयम चुविया श्री सित्त कुछ रा वीदित वाणिकिक युपर परदेत, संपत्ता वरियागा निर्त कर्त क		3						
ग सूचनायें निर्गत की थी, जिनमें स्तंभ सं. 2 मतें वर्णितानुसार उघारकर्ताओं / साह-वायतकर्ताओं / साह-वायितकर्ताओं के सुवना की तिथि से 00 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत भावी व्याज का प्रतिमुगतान करने कहा गया था, किंतु जनमें से कुछ को विगिन्न करणों से सूचनायें प्राप्त ही नहीं हो सकी हैं। जिस्ताकर्ता के का नाम / सह-चायतकर्ता का नाम / बिकेराकर्ता के का नाम / सह-चायतकर्ता का नाम / बिकेराकर्ता के का नाम / सह-वायतकर्ता का नाम / बिकेराकर्ता के का नाम / सह-वायात्स सं परिवर्ग देदिदेशन प्राइवेट लिमिटेड (ज्वायरुती)/श्री त्रियुवन कुमार परनामी/श्री अनिल कुमार (ग-00-2023 के अनुसार परनानी/श्री रिविट्रियून साईन, तुजाव, हरियाणा – 122001 में दिवत है, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो श्री स्मन कुमार परनानी ये स्वतिरिवराय या इति (अनुसुची संपत्ति) : बातसीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंस जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519V/11 के रूप संविद्यान देवा व्याहजा का पर। परिवर से दिवरा प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनानी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रियुवन कुमार परनानी / श्रे विवि तपत्र याहिला का पर। श्रीवि का महा परा वा गई सण गिम्मानुसार परिसिमित है : उत्तर- निजी सडक, दक्षिम- मकान, पूर्व- आर. पी. बतुवेदी का मकान, परिवर, वे बतपर्स प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनानी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रियुवन कुमार परनानी / श्रीवेख कृमार कटरिया / श्रीन्ती कंपू परनानी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रियुवन कुमार परनानी / श्री बुखेत कुमार कटरिया / श्रीन्ती कंपू परनानी श्रीवित वागविजिय संवर वह भाग तथा आंत्र के अनुप्रार ता नीटर है, जो नैरस से . एस बेवलपर्स प्राइवेट लिनिटेड के स्वातित्वायाण्य है (उपर्युक्त संपत्ती मेरस परनानी युद्ध केरिय प्राइवेट लिनिटेड के पमाति वित्र वाणिजिय परतर, अर्वन एसटेट, गुडमांव हरियाणा में स्विय है, जिसकी माप 222.72 वर्ग नीटर है, जो नैरस से . एस बेवलपर्स प्राइवेट लिनिटेड के सवातित्वायाण्य में ई (उपर्युक्त संपत्ति नेयस परनानी मेरित तथा उपरिवर है, सेवटर – ओल्ड ज्युडियियत कॉम्सेट लिनिटेड /जी एक परनानी श्री तित्व वाणिजिय प्रायत्त्य में दे (उपर्युक्त संपत्ति ने निर्य है, जिसकी माप 222.72 वर्ग नीटव केंग्रो ने समत त्र श्री प्रतत के रूप में विंदित वाणिजियक स्वरत व क्या प्रतती से से स्वर वा व्याहत है, सेवटर – ओल्ड ज्युडियिय कॉम्सेड ल								
संहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मायी व्याज का प्रतिमुगतान करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विविन्न कारणों से सूचनायों प्राप्त ही नहीं हो सकी हैं। प्रयापकर्ता का नम/सह-डायारकर्ता का नाम/ स्राप्त खाता सं. रेषयदि ही नहिंदेशन प्राइदेट लिमिटेड (उपापकराी)/श्री त्रिमुवन कुमार परमानी/श्री अनित कुमार परनाती/श्री रान कुमार परमाती प्रतिपूर संपति (अनुसूची संपति) : आतासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंग जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 310 व व व व व व व व व व व व कि क क्वाकि क क्वाक क्वाक के स्वर के स्वा ने व व व व व व व व व व व व व व व व व व								
उषारकर्ता का नाम/सह-उषायकर्ता का नाम / विक्रेताकर्ता बैंक का नाम/ऋण खाता सं. विक्रेताकर्ता बैंक का नाम/ऋण खाता सं. विक्रेताक का नाम/इस प्रत्नामी विक्रेताकर्ता बैंक का नाम/आखात संगता के सुमार परनामी/श्री अगिल कुमार परनामी निश्च कि नवा	ां सह	समतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 60 दिवसों के	अंदर सूचनाओं	में अंकित रागि	शे तथा राशि प			
विक्रेताकर्ता बैंक का नाम/ऋण खाता सं. देपपणि की तिथि णीएलपी हैबिटेवान प्राइवेट लिमिटेड (उघाएकराी)/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी/श्री अगिल कुमार 0	क	0 0			सकी हैं।			
परनामी/औ रमन कुमार परनामी 01-08-2023 के अनुसार 19-10-2023 प्रतिमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519ए/11 के रूप के स्वार यं उपरिवत, रतन गार्डन, गुडगां, हरियाणा – 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो भी स्मन कुमार परनामी के स्पति का प्रजा में हे तथा निमानुसार परिसीमित है : उत्तर – निजी सड़क रविण– मकान, पूर्व– आर. पी. चतुर्वेदी का मकान, परिवन, पर्य- आर. परनामी / भी अजिल कुमार परनामी / भी प्रुपीत वमीजा / अत्र दिष्प- मकान, पूर्व– आर. पी. चतुर्वेदी का मकान, परिवर, संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संपति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 500-11 में स्वित तथा उपस्थित है, संतर – कोटड ज्यूडी संपति (अनुसूची संपति) : आवल वाणिज्यिक संपति के समस्त वह माग तथा अंश जो एसरीओ प्लॉट नंबर 500-11 में स्वित तथा उपस्थित है, संतर – कोटड ज्यूडीवियात कॉमन्लेस के रूप में विति वाणिज्यिक परिसर, अर्वन पर्य-, गुवगांव हरियाणा मं स्थित है. जिसकी माप 2223 वर्ग नीतर दे, जो मैसर्स परनामी युद्द कैरिपर प्राइवेट लिनिटेड / जी. एत. परनामी मार्कटिंग कंपनी / भी त्रिपुवन कुमार र 34.698.373/- 39-08-2023 के अनुसार प्रतिमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ती के समस्त वह माग तथा अंश जो एसरीओ प्लॉट नंबर 50-51 में स्थित तथा उपस्थित है, संतर – आंत्र कुरार प्राइवेट लिनिटेड / जी. एत. परनामी मार्कटिंग कंपनी / भी त्रिपुवन कुमार र 34.698.373/- 39-08-2023 के अनुसार प्रतिमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ती के समस्त वह माग तथा अंश ते सरसं परनामी युद्ध कैरियर प्राइवेट लिनिटेड हारा प्रात की गई करार परनानी / भी अनुत्त कुमार करा हि कि 400 तावा उपस्थित है, तंबर पर नाज्य ते भा द्र राई पर्ट लिनिटेड हारा प्रात श्रे प्र संखीत के संपति ने सं स्वी एस दे होति के उत्तर सं संखता या पार रा या है यह दात								
प्रतिमुत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519(7/11 के रूप में स्थित एवं उपस्थित, रत्तन गार्डन, गुड़मांव, हरियाणा – 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो भी रमन कुमार परनामी के रयामितवारण में है तथा निमानुसार परिसीमित है : उत्तर– निजी सड़क, दक्षिण– मकान, यूर्द– आर. पी. चतुर्वेदी का मकान, परिषत– विजय आहूजा का घर। भी दूरेस डेबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/भी त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बुखेत कुमार कटारिया / श्रीनती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी/श्री पुनीत बमीजा / श्री ब्रेस डेबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बुखेत कुमार कटारिया / श्रीनती अंजू परनामी श्री अनिल कुमार परनामी/श्री पुनीत बमीजा / श्री अतिल मगत /श्री रपन कुमार परनामी प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति): अलव वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ पर्वति नंबर 50–51 में स्थित तथा जपसिद है, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्स्लेकस के रूप मं विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगाव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग नी रह है, जो नैसर्स ते एस. डेबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वातित्वारण में है (उपयुंक संपत्ति नैसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रान्त की गई ऋण सुवीदा में भी बंधककृत की गई है) परनामी / श्री बुजेश कुमार कुमार परनामी प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवत वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित है, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिस, अर्वन एस्टेट, गुडगाव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर हे, जो मैसर्स दी एस. डेबलपर्स प्रइवेट लिमिटेड के स्वानित्वारणर में है (उपयुंक संपत्ती नैसर्स वी एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रात के गर्ह खेन कुपाय तथा प्रवति के रूपर राव हा पाणिय्यक परिस, अर्वन एस्टेट, गुडगाव हरियाणा में स्थित है, जितकी माप 272.75 वर्ग मॉवर १ जो ने संवेदर रतने संखवा 1 में संविति वाणिज्यिक परिस, अर्वन एस्टेट, गुडगाव हरियाणा में एस है, जिसकी माप 272.75 वर्ग मंदर थ या वित्ति कि क्या वर्ता कर्स के रूप ने खिरा है हो। प्रातर के पर्ह खियान कार क	ਚ	ोएलपी हैबिटेशन प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता)/श्र	ो त्रिभुवन कुग	नार परनामी/श	भी अनिल कु	गर इ. 37.1	18,794/-	10 10 0000
में सिंधत एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुडगांव, हरियाणा – 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो शे रमन कुमार परमा नी के रयानित्वधारण में है तथा निमानुसार परिसीमित है : उत्तर– निजी सडक, दक्षिण– मकान, पूर्व– आर. पी. बतुर्वेदी का मकान, परिवन– विजय आहूजा का घर। ती. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनानी नाकेंटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनानी / श्री कृषेत कुपार कटरिया / श्रीमती अंजू परनानी / श्री अतिल कुमार परनामी / श्री प्रतीव धनीजा / श्री जतिल मगत /श्री रमन कुमार परनानी प्रतिमूत संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेवटर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.76 वर्ग नीटर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वातित्वधारण में है (उपर्युक्त संपति नैसर्स परनानी युक्स केरियर प्राइवेट लिमिटेड/ वर्ग नीटर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वधारण में है (उपर्युक्त संपति नैसर्स परनानी युक्स केरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रारत की गई ऋण चुविधा में भी बंककृत की गई है) परनामी / श्री कुमेश प्राइवेट लिमिटेड / जी. एल. परनामी मार्कटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री कुमेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परानामी / श्री अनिल कुमार परनानी हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.75 वंगीजा / श्री अतित बगत / श्री सनन कुमार परनानी प्रतित्व संपति (अनुसूची संपति) : जबल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा आंश जो एससीआ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हें, सेवटर – ओल्ड ज्युडिशियत कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिस, अर्बन एसटेट, गुडगांव हरियाणा में स्थिद है. जिसकी माप 272.75 वर्ग नीर की. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वारण में है (उपर्युक संपत्ति नैसर्स वी,एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हारा प्रति की नई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। हरता संख्या 2 में उल्लिखितानुसार कुल राक्री मं दीटित वाणिज्यिक प्रात्त सिंह स्वरात नर्दी। यं तिरिदे हारा प्रात्त की नई ऋण चुविधा के संखंघ में भुगतानात्वार वर्च में संखित जियाजतारों / पारंटरों, सह–दायित्वायारकों ए सार र्ततोओं के समब दर्श		नगरी / भी जान काम प्रान्तगरी			~			19-10-2023
परियम– विजय आहूजा का घर। त. एस. खेवलपसं प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्रे बुलेग कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी/श्री पुनीत धमीजा / श्रे बोनल मगत /श्री रमन कुमार परनामी प्रतिमूत संपति (अनुसूची संपति) : जनत वाणिज्यिक संपति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ ग्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित है, सेक्टर – ओलड ज्युविधियाल कॉम्लंकेस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्जन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माय 272.78 वर्ग नीटर है, जो नैसर्स पी, एस. खेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वारण में है (उपर्युक्त संपति भिरात्मा) स्थत है. जिसकी माय 272.78 वर्ग नीटर है, जो नैसर्स पी, एस. खेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मेसर्भ परनामी) युद्द केरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा कॉमलंकस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्जन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माय 272.78 वर्गनी / श्री हरोत्त कुमार कटाशिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनित्व कुमार परनामी / श्री पुनेमुवन कुमार परनामी / श्री हरोत्त कुमार कटाशिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री क्रीमुवन कुमार परनामी / श्री हरोत कुमार कटाशिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री क्रीमुवन कुमार परनामी / श्री हर्युवर्म संपति (अनुसूच्री संपति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ ग्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हे, संवरट – ओलड ज्युविधियल कॉमलंकस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अंन परटेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माय 272.75 वर्ग मीटर है, जो नैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वारणरम में है (उपर्युक्त संपति नैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रात की गई ऋण चुविधा में भाव क्याककृत की गई है)। ह. स्तंम संख्या 2 में उल्लिखितनुमार उघार प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वारणरम में है (उपर्युक्त संसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रातिकर्ताओं क समक्ष दर्शितानुसार उचार तर्जा में संबंधित वायागताओं / मारंटरों/ सह–दायित्वघरकों / मारंटरा खार को ने सर्राई गई तिषि अनुसार संकीति ऋण खाता के संबंघ में गुनातानयेय पाया गाया हो सर परट किया जाता है के वीवि नावी व्या पराई में ति	प		प्राप्त तह भाग		मकान नंगर ह0	01-08-202	3 के अनुसार	
श. एस. डेबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / ए. 11.86.46.551/- 30-06-2023 के अनुसार 19-10-2023 श्री अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी श्री स्वेत एस. देवलपर्स कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अतिल कुमार परनामी/श्री पुनीत वमीजा / 19-10-2023 श्री अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी श्री स्वेत तथा उपस्थित के सनुसार 19-10-2023 श्री अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी श्री संवर न जोव्ह ज्यूडिवियल कॉम्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्वन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.75 कं जुमुसा रे रियर प्राइवेट लिमिटेड के सवागित्वारण में है (उपर्युक्त संपरिती मैसर्स परनामी गुब्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के सवागितवारण में है (उपर्युक्त संपरिती भर्मर परनामी गुब्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के सवागितवारण में है (उपर्युक्त संपरिती मैसर्स परनामी गुब्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के सवागितवारण में है (उपर्युक्त कुमार परनामी / श्री दुमेतन कुमार परनामी / श्री दुमेतन कुमार परनामी / श्री दुमेतन कुमार परनामी गुब्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के सवागितवारण में है (उपर्युक्त कुमार परनामी ग्री श्री कुमुवन कुमार परनामी ग्री स्वावेत वाणिज्यिक संपत्त के समरत वह माग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50-51 में स्थित तथा उपस्थित वर्या प्रदर्श मंगे श्री स्वेति संगत श्री प्रतम एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कर स्वामितव्यारण में है (उपर्युक्त संपरि (अनुसूर्य संपरि) अपन कुमार परनामी) 91-10-2023 प्रतमान भार / श्री संगन कुमार परनामी श्री अतिक क्या प्रवह क्या क्रियर प्राइवेट लिमिटेड कर सवामितव्यारण परिस, अर्वन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित तथा उपस्थित तथा उपरियत मिंदा अपरिया भ्री संतर के संचर परना में रे रे रे रे रे रे रे तिमेरेड के जो में रे लिमिटेड के स्वामितव्या	प प्र में	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के र स्थित एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा	- 122001 में	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर	तकी माप 448	01–08–202 0 नवीन नंबर ध वर्ग गज है, ज	3 के अनुसार 519/11 व 51 ते श्री रमन व्	19ए⁄11 के रूप टुमार परनामी वे
श्रे वर्णेस कुमार कटारिया श्रीमती अंजू परनामी श्री अनिल मगत श्री प्रभाव कुमार परनामी श्री अनिल मगत श्री स्पत्त कुमार परनामी श्री अनिल मगत श्री स्पत्त कुमार परनामी श्री स्पत्त संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एसरीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित दर्ग मंतर है, जो मैसर्स परनामी प्रइस्ट लिमिटेड के स्वामित्व्यारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी) युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व्यारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी) युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व्यारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी) युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड (लिमिटेड कं स्वामित्व्यारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी) युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड (लिमिटेड कं स्वामित्व्यारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी) युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड (लिमिटेड वर्णा) / श्री अनित्व कुमार परनामी / श्री विपुवन कुमार परनामी युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनामी मार्कटिंग कंपनी /श्री तिपुवन कुमार परनामी श्र कुजे कु प्रार पर 19-10-2023 परनाभी युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनामी मार्कटिंग कंपनी /श्री तिपुवन कुमार परनाभी / श्री कुपुवन कुमार परनाभी युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड वर्ण परनामी / श्री अनिवल कुमार परनामी / श्री कुपुवन कुमार परनामी 19-10-2023 प्रतमांत (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ता के समस्त वह भाग तथा अंश जो एसरीओ प्लॉट नंबर 50–61 में स्थित तथा उपस्थिव वर्ग मंतर श्रे से स्वत स्व वर्ग परनामी 19-10-2023 9-09-2023 9-09-2023 9-09-2023 9-09-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 19-10-20	प प्र में स्व	तेभूत संपत्ति (अनुसूवी संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज स्थित एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुडगांव, हरियाणा गमित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित ां	- 122001 में	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर	तकी माप 448	01–08–202 0 नवीन नंबर ध वर्ग गज है, ज	3 के अनुसार 519/11 व 51 ते श्री रमन व्	19ए⁄11 के रूप टुमार परनामी वे
प्रतिभूत संपति (अनुसूची संपति) : अवत वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा जपस्थित है संकटर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी युद्द कीरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है) परनामी / श्री कृषेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री कृषेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री पुनीत धनीजा / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित है, सेक्टर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसके माप 272.75 वर्ग नीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति संसर्स वह, जिसके माप 272.75 यां नीटर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वीएमा संख्य ह, जिसके माप 272.75 यां नीटर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वीएमा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रातं की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। ह. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार खुल राशि को भुगतान करने के लिए कहा जाता है, वयॉवि जि राशि को संसर्य सर्याय में संख्या 4 में दर्शाई गई विधि अनुसार संवधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, ते आर्ति जयंवुत्त तातिका में विवरणितानुसार सुवना के प्रवर्तनार्थ जिति मेय वर्त सोर्व र्व करने के लिए बाध्य होगी। अधिनित्य तथा उसके अंतर्गत विरयिति नियमावली के अंतर्ग हस्ता र याखित के प्रवर्तनार्थ सं से से लेतवे है करने के लिए बाध्य होगी। अधिनिय्य तथा उसके अंतर्गत विरयिति नियमावली के अंतर्गत त्यांतानुमार अन्य विधियां से सूचना को सेव करिये भी कदम उठाए जा रहे है। त	प प्र में स्व प	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिथत, रत्तन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ागित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i रेषम– विजय आहूजा का घर।	– 122001 में है : उत्तर–	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क,	तकी माप 448 दक्षिण — मक	01–08–202 0 नवीन नंबर 1 वर्ग गज है, ज न, पूर्व – आ	3 के अनुसार 519 / 11 व 51 तो श्री रमन व् र. पी. चतुर्वे	19ए⁄11 के रूप टुमार परनामी वे
हैं, सेक्टर – औल्ड जैयुडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्थन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी गुड्स कैरिपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है) परनामी गुड्स कैरिपर प्राइवेट लिमिटेड / जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी / श्री त्रिमुवन कुमार प्रतमामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री औत्त कुमार परनामी / श्री नुमुवन कुमार परनामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री नुमुवन कुमार प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अयल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ 'लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉमल्तेस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्थन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.75 तर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वीएस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। तर संग संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकरतीओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं नार्रारसे, सह–दायित्वधारकों एवं म्यतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार खुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंम संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, के यदि मावी व्याज एवं अन्य राशियों के साध त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान ही किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार ततित्मुत्तार अन्य विधियों से सूचना की सेवा केलिये की कदम उठाए जा रहे हैं। तत्व राशि, जो कि भुवतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुतातान ही किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार तत्वितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तत्तितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तक : 19,इगां स्वर्य विधयों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। 	प प्र में स्व वी	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ामित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न	तथा अंश जो स्थित हैं, जिस निजी सड़क,	तकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी	01-08-202 0 नवीन नंबर ध वर्ग गज है, ज 1न, पूर्द- आ 7 रु. 11,8 30-0	23 के अनुसार 519 / 11 व 51 तो श्री रमन व् र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023	19ए⁄11 के रूप टुमार परनामी वं दी का मकान
वर्ग मीटर है, जो मैसर्से वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है) परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रुमुवन कुमार परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रुमुवन कुमार परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री पुनीत श्रे के अनुसार प्रतिपुत संपत्ति (अनुसुची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसके माप 272.75 वर्ग नीटर है, जो मैसर्स ती. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वीएस. अंवल दी, जिसके माप 272.75 वर्ग नीटर है, जो मैसर्स ती. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वीएस डावलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रात की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। r. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार खुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, कयोंकि उस राशि को स्रंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संवधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, कयाशि को संसं संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संवधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, ते आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसार ज राशि, जो कि युतातान की तिथि तक देय हो सकती है, का मुगतान नहीं किया जाता है, ते आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसा तरियां पर प्रतिशृति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्सवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्ग विरचित नियमवली के अंतर्ग तांरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुडुगाव तांक : 09–11–2023 एसटेट रिकंस्ट्रव्यात कर्य, 10वां तल. 29 सेनापति यापत मार, दादर (परियम), नुबई–4	प प्री में स्र पी वी श्र	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ामित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित f रेमम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी I बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी I अनिल भगत /श्री रमन कुमार परनामी	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री	तकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा	01-08-202 0 नवीन नंबर ! वर्ग गज है, ज 1न, पूर्व- आ / रु. 11,8 30-0 के :	3 के अनुसार 519 / 11 व 51 1ो श्री रमन व् र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023 अनुसार	19ए / 11 के रूप ठुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023
परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार परनामी /श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी /श्री त्रुमुवन कुमार परनामी /श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी /श्री अनिल कुमार परनामी /श्री पुनोत मंगेजा /श्री अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, संकटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉमलेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.75 वर्ग मोटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बांधककृत की गई है)। त. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों/ सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं लंगरंट रहे, जन्द-दायित्वधारक ा सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं /गारंटरों, सह–दायित्वधारक पर मार्विकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों/ सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे (मुवान के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं /गरंटरों, रसह–दायित्वधारकों प्र प्रतिर्या के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं /गरंटरों, सह–दायित्वधारकों ए मार्विकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का मुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पत्रि को संस संख्या 4 में दर्शाई न्याई ही तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी व्याज एवं अन्य राशि के साध त्र राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्तिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसा तरियां पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगे। अधिनियम तथा उसकं अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वंगितानुमार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तरार./– प्राधिकृत कमर्य दिकस्ट्रव्यान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एकेस्ट्रव्य	प प्रा में रूप वी श्र श्र	तेमूल संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के स रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ामित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी I बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी I अनिल भगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूल संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप	 – 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम गित के समस्त 	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा व	तकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससी3	01-08-202 0 नवीन नंबर (वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 हो : गो प्लॉट नंबर (3 के अनुसार 519 / 11 व 51 ते श्री रमन व् 3,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में स्थि	19ए / 11 के रूप ट्रमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित
परनामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री पुनीत धनीजा / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वचारण में हैं (जयर्क्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई हैं)। त. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / वारंदरों / सह–दायित्वचारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे (सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–दायित्वचारकों एवं सहमतिकर्ताओं को स्पृत्वित किया जाता है, उन्हे (सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वचारकों एवं सहमतिकर्ताओं का स्वरिंगा कुं स्वित्त कुं राजी में संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संख्या 2 में उल्लिखितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त शशि को संग संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, की यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है ते आर्सेल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसा तारियों पर प्रतिमूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्शवाई करने के लिए बाध्य होगे। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वंगितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्वां र गुडगांव तांक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रव्रान कंपनी (ईडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 20 सेनापत्ति वापत मार्ग, दादर (परियम,), युबई–400028, दूष्माष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीजाइंएन – U65999MH2002PLC134884	प प्रा में रूप वी श्र श्र प्रा हो	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के त रिथत एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ामित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। . एस. डेवलपर्स प्राह्रवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी 1 बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी 1 अनिल भगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में 1	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम गत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय्य	तथा अंश जो रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन	तकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससी3 न एस्टेट, गुडगां	01-08-202 0 नवीन नंबर (वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 हरे हरियाणा में	3 के अनुसार 519 / 11 व 51 ते श्री रमन व् 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में स्थित रिथत है, जिस्	19ए / 11 के रूग रुमार परनामी वे दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.79
बमीजा / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी के अनुसार प्रतिभुत संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक संपति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रात की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। त: स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे । सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एवं भाविकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार खुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, व्योंकि उक्त राशि को संत संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है ते यदि मावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ न राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्सिल उपयुक्त तालिका में विवरणितानुसार वियों पर प्रतिनूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुड्रगांव तक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रव्हान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रव्हान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबे, 10वां तल, 29 संनापति वापत मार्ग, दावर (परियम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सोजाइंएन – U65999MH2002PLC134884	प प्रा में स्व वी श्र श्र हो ह र ग द्वा	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के स रिथत एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ामित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी I बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी I अनिल भगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में f मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई	– 122001 में सार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम गति के समस्त वेदित वाणिज्यिग नेटेड के स्वामित { है है)	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा ३ क परिसर, अर्थन वधारण में है (त	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससी3 त एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति व	01-08-202 0 नवीन नंबर ! वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के ? 1) प्लॉट नंबर ! व हरियाणा में नेसर्स परनामी	3 के अनुसार 519/11 व 51 ते, श्री रमन व् र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में स्थि स्थित है, जिस् गुड्स कैरियर	19ए / 11 के रूग रुमार परनामी वे दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.79
हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्थन एस्टेट, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग भीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। त. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों/सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे । सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं /सह–उधारकर्ताओं /गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एवं भार्विकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंम संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ न राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है ते यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ न राशि, जो कि भुवतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसाप वियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित करियाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तत्व : पद्र प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ रिवा क तिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (दुंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूब, 10वां तल, 29 संनापति वापत मार्ग, दादर (परिचम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सोजाइंएन – U65999MH2002PLC134884	प प्रा में स्प वी श्र श्र ग हैं वग हा प प	तेमूत संपति (अनुसूधी संपति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी 1 बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी 1 अनिल भगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूधी संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में 1 निरिट है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई नामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल.	– 122001 में डे : उत्तर– मार्कटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित वेदित क स्वामित हेरेड के स्वामित ई है)	तथा अंश जो रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री तिभुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा द क परिसर, अर्व वधारण में है (तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससीव त एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति व श्री त्रिभुवन कु	01-08-202 0 नवीन नंबर ! वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के रो प्लॉट नंबर ! व हरियाणा में नेसर्स परनामी नार रू. 34,1	3 के अनुसार 519 / 11 व 51 ते श्री रमन व र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में स्थिय कुट्स कैरियर 598,373/-	19ए/11 के रू ट्रु मार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर
यर्ग मोटर है, जो मैसर्से वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। इ. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे । सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एवं भ्रतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ त्र राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमवली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुडुमांव तक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईखिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वा तल, 29 संनापति बापत मार्ग, दावर (परियम,) मुंबई–40028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीजाइंएन – U65999MH2002PLC134884	पर प्री में स्ट पी वी श्र श्र हैं, वग द्वा पर पर	तेमूत संपत्ति (अनुसूधी संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी 1 बुजेष कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / 1 अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक संप संयटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है, जो मैसर्स ती. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंघककृत की गई रानामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. तामी / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम गति के समस्त वेदित वाणिज्यित रेटेड के स्वामित [है) परनामी मार्केति रनामी / श्री 3	तथा अंश जो रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री तिभुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा द क परिसर, अर्व वधारण में है (तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससीव त एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति व प्री त्रिभुवन कु	01-08-202 0 नवीन नंबर (वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / रु. 11,8 30-0 के (1) प्लॉट नंबर (व हरियाणा में नेसर्स परनामी : गर रु. 34,4 30-0	3 के अनुसार 519 / 11 व 51 ते। श्री रमन व् 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथ्य रिथित है, जिस रिथित है, जिस राष्ट्र के रियर 598,373/- 9-2023	19ए/11 के रू ट्रु मार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर
प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। r, स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सुचित किया जाता है, उन्हे 1 सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एवं स्वतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ त्र राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसार त्र राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसार त्र राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का मुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसार त्र राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का नुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसार त्रियां पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत योरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ref : गुड़गांव त्रांक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड राजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 संनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	पर प्री में रूप वी श्रेश्व श्री हैं क द्वा पर प्रा	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी 1 बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / 1 अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक संप सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककुत की गई (नामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. तामी / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तोजा / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक सं	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यित देखे के स्वामित ई डे) परनामी मार्केति रनामी / श्री अ पत्ति के समस्त	तथा अंश जो रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री त्रिमुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्ब- वचारण में है (टेंग कंपनी // रीलि कुमार पर वह भाग तथा :	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा १ एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पुन् अंश जो एससीव	01-08-202 0 नवीन नंबर (वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / रु. 11,8 30-0 के (1) प्लॉट नंबर (ब हरियाणा में नेसर्स परनामी नेसर्स परनामी तार रु. 34,0 के (30-0 के (30-0 के (30-0 के (30-0 के (30-0 के (30-0 के (30-0) के (30-0 के (30-0) के (30-0) (30-0) के (30-0) के (30-0) (3 के अनुसार 519 / 11 व 51 519 / 11 व 51 ते औ रमन वृ र. पी. चतुर्गे 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथा रिथित है, जिस शुद्धस कैरियर 598,373/- 9-2023 9-2023 अनुसार 598,373/- 9-2023 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथा 50-51 में रिथा	19ए/11 के रू टुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटे 19-10-2023 त तथा उपस्थित
। सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उघारकर्ताओं / सह-उघारकर्ताओं / गारंटरों, सह-दायित्वघारकों एव स्मतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ तु राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्रातान इप्रार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्राहा : गुडुगांव तांक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (द्वंडिया) लिमिटेड पंजीबृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति वापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-40028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	पर प्रा में रूप पी वी श्रेश्र श्रे श्र श्रेश्व व द्वा पर धर श्र ही	तेमूल संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी ! बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / ! अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में f मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (नामी) श्री इजेश कुमार कटारिया / श्री स्वन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम वेदित वाणिज्यिय देखे के स्वामिर है है) परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, i/ श्री त्रिभुवन IV परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन वहारण में है (टेंग कंपनी / श्र निल कुमार पर वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीअ त एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीअ त एस्टेट, गुडगां	01-08-202 0 नवीन नंबर स वर्ग गज है, ज ान, पूर्व- आ / रु. 11,8 30-0 के र 1) प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नेसर्स परनामी तार रु. 34,, 30-0 के र 1) प्लॉट नंबर स् व हरियाणा में	३ के अनुसार 519 / 11 व 51 तेशी रमन व तेशी रमन व 6,46,551/- – 2023 ७- 2023 ४नुसार 50-51 में रिथा 50-51 में रिथा 5098,373/- ०-2023 ४नुसार 5098,373/- ०-2023 ४नुसार 50-51 में रिथा	19ए/11 के रू 29 गर परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित 19-10-2023 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7
भतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसा तरियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरधित नियमावली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्राता : गुडुगांव तांक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रव्रान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीबृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति वापत मार्ग, दावर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	पर प्रा में रूप वी श्रेश्र या द्वा पर पर घर प्रा हैं, वर	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के र रिश्वत एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ागितवधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i रेषम– विजय आहूजा का घर। . एस. खेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी बुजेस कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी बजेति मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियत कॉम्ट्लेस के रूप में र्त मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि राप्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (नामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. (नामी गुइस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. (नामी गुइस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. नामी ग्रे श्री अनिल भगत / श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अतल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्तेस्क के रूप में र्त मेवटर – आलड ज्यूडिशियल कॉम्प्तेस्क के रूप में	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यि वेदित वाणिज्यि रेड के स्वामित रनामी / श्री अ परनामी / श्री अ पति के समस्त वेदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय हेड के स्वामित	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, i/ श्री त्रिभुवन IV परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन वहारण में है (टेंग कंपनी / श्र निल कुमार पर वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीअ त एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीअ त एस्टेट, गुडगां	01-08-202 0 नवीन नंबर स वर्ग गज है, ज ान, पूर्व- आ / रु. 11,8 30-0 के र 1) प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नेसर्स परनामी तार रु. 34,, 30-0 के र 1) प्लॉट नंबर स् व हरियाणा में	३ के अनुसार 519 / 11 व 51 तेशी रमन व तेशी रमन व 6,46,551/- – 2023 ७- 2023 ४नुसार 50-51 में रिथा 50-51 में रिथा 5098,373/- ०-2023 ४नुसार 5098,373/- ०-2023 ४नुसार 50-51 में रिथा	19ए/11 के रू 29 गर परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित 19-10-2023 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7
अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज एवं अन्य राशियों के साथ त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार तिथों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्रांत : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड राजीब्ह्त कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in,	प प्रा में में स्टर्पा वी श्रेश्व श्रे हैं, वर द्वा पर पर धर प्रा हैं, वर प्रा	तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी 1 बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमृत इस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. पामा तो गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई तेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमिटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि दत्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)।	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यिय रेटेड के स्वामित रूनामी / श्री अ परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ परित के समस्त वेदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, 1/ श्री त्रिभुवन 1र परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन वद्यारण में है (त वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन वघारण में है (त	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा १ एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पुर अंश जो एससीठ १ एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति र	01-08-202 0 नवीन नंबर (वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / रु. 11,8 30-0 के र 1) प्लॉट नंबर (व हरियाणा में नेसर्स परनामी जित के 34, 30-0 के र 31 प्लॉट नंबर (30-0 के र 30-0 के र 30	3 के अनुसार 519 / 11 व 51 ते श्री रमन व 6,46,551/- 6,46,551/- 6,46,551/- 6,46,551/- 6,46,551/- 6,46,551/- 6,40,51/- 508,373/- 6,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,	19ए/11 के रू ट्रमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित 19-10-2023 त तथा उपस्थित व तथा उपस्थित त तथा उपस्थित व नाथा उपस्थित ह लिमिटेड द्वार
त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार तिथों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्रांत : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड रोजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दावर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	पर प्रति में स्वयात्र के कि	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के रिश्वत एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i रेषम– विजय आह्जा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी बृखेय कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी बृजेत संपति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिवियत कॉम्टतेलस के रूप में ां मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि राप्रात की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (नामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. ानामी / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तीजा / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तीजा / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्टतेलस के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्टतेल्स के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्टतेल्स के रूप में तम्बत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्तनेक्स के रूप में तम्बत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्तनेक्स के रूप में तम्बत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडाशियल कॉम्तनेक्स के रूप में तम्बर संवटर – ओल्ड ज्यूडा कुमार कटारिया / श्रीमती अंड्र स्वत्य 1 द में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संय	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम विति के समस्त वेदित वाणिज्यिग नेटेड के स्वामित रूतामी / श्री अ परनामी / श्री अ पति के समस्त वेदित वाणिज्यिय वेदित के स्वामित केटेड के स्वामित कर्कर्ताओं / गारंव व्या 3 में संबंधि	तथा अंश जो रिथत हैं, जिर निजी सड़क, ते/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन चयारण में है (वह भाग तथा : क परिसर, अर्व वह भाग तथा : क परिसर, अर्व वयारण में है (रो/ सह–दायि वेत उधारकर्ता3	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीव उपर्युक्त संपत्ति व श्री त्रिभुवन कु नामी ∕ श्री पुड जंश जो एससीव उपर्युक्त संपत्ति व उपर्युक्त संपत्ति व त्तवारकों एवं स्	01-08-202 0 नवीन नंबर ! वर्ग गप्त है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के : 1 प्लॉट नंबर ! व हरियाणा में नेसर्स परनामी तेस र. 34,0 के : 1 प्लॉट नंबर ! व हरियाणा में नेसर्स वी.एस. रं रकर्ताओं / गा	3 के अनुसार 519 / 11 व 511 519 / 11 व 511 ते अगे रमन व द. पी. चतुर्व 6,46,551/- 9-2023 9-2023 अनुसार 60-51 में रिथा रिथात है, जिस् प्रिवल मेह जिस् उवलपर्स प्राइवे के सुचित किट रंटरों, सह-द	19ए/11 के रू टुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेड 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार या जाता है, उन ायित्वधारकों ए
र्वारितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुड़गांव हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तांक : 09-11-2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड राजीकृत कार्यालय : दि रूबे. 10वां तल. 29 सेनापति वापत मार्ग, दावर (पश्चिम). मुंबई-400028. दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन - U65999MH2002PLC134884	पर प्री में स्ट पी वी श्रेश्व श्रे व दा पर पर श्र श्र हैं, व दा पर पर श्र श्र हैं, व दा पर पर श्र श्र हैं, व दा पर पर श्र श्र श्र श्र त प्री हैं, व दा श्र त र र र र र र र र र र र र र र र र र र	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज रियत एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i रेषम– विजय आह्जा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी I बुजेष खुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी I बजिल भगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में रिं मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि राप्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (नामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तीजा / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तिन्त संपत्ति (अनुसूची संपति) : जचल वाणिज्यिक सं सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमृत संपति (अनुसूची संपति) : जचत वाणिज्यिक सं सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमृत संपति (अनुसूची संपति) : जचत वाणिज्यिक सं सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमिटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि रा ठी गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई हो निटर है, जो मैक्स की. एस. डेवलपर्स प्राइवेट तिमि संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उद्यारकार्जो/ र्वधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के आंदर, रतम संस कर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगता-	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित रेटेड के स्वामित रनामी / श्री अ परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ पत्त के समस्त देदित वाणिज्यित रोटेड के स्वामित ज्वर्क्ताओं / गारंद व्या 3 में संबंधि न करने के लिग	तथा अंश जो रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/ श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा क्ष क परिसर, अर्वन वधारण में है (रेंग कंपनी /श वह भाग तथा क क परिसर, अर्वन वधारण में है (रों/ सह–दायि देत उधारकर्ता र कहा जाता है	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससी3 उपर्युक्त संपत्ति : । एस्टेट, गुडगां इपर्युक्त संपत्ति : त्वधारकों एवं स् मौं / सह–उधा दे, क्योंकि उक्त	01-08-202 0 नवीन नंबर ! वर्ग गप्त है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के र व हरियाणा में नेसर्स परनामी नार र. 34,4 30-0 के र व हरियाणा में नेसर्स वी.एस. रे एकर्ताओं / गा राशि को रत्तंम	3 के अनुसार 31 रमन व् 519 / 11 व 51 519 / 11 व 51 519 / 11 व 51 6,46,551/- 9-2023 9-2023 अनुसार 00-51 में रिधा रिधत है, जिस् रिधत है, जिस् रिधत है, जिस् देवलपर्स प्राइवेत को सुचित किट रंटरों, सह-व संख्या 4 में	19ए/11 के रू टुमार परनामी बं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेव 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित व तथा उपस्थित द लिमिटेड द्वार ग जाता है, उन ायित्वधारकों एर दर्शाई गई तिर्धि
ान : गुड़गांव तांक : 09−11−2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबे. 10वां तल, 29 संनापति वापत मार्ग, दावर (पश्चिम), मुंबई-40028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	पर प्री में स्ट पी वी श्रेश् श्रे व श्रे व श्रे हैं, व य प्रा हैं, व य प्रा हैं, व य प्रा हैं, व य प्रा हैं, व य प्रा हैं, व य प्रा त प्रा र र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र र प्रा र प्रा र प्रा र प्रा र प्र र प्रा र प्रा र प्रा र र प्र र प्रा र प्र प्र प्र प्र र प्र प्र र प्र प्रा र प्र प्र प्र र प्र र प्र प्र प्र र प्र प्	तेमूत संपति (अनुसूधी संपति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथ्वत एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी ! बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी ! बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी तेमूत संपति (अनुसूधी संपति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिं मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि राप्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई स्वान्त संपत्ति (अनुसूधी संपति) : अचल वाणिज्यिक संप तंमिटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि राप्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई स्वान्त / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तिण्त संपत्ति (अनुसूधी संपति) : अवल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिंमीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि रा तकी गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। तंम संख्या २ में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, रत्म सं कर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान सार संबंधित ऋण खता के संबंध में भुगतानयोग्य प	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय हेडे के स्वामित रनामी / श्री अ परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ परनामी / गरिव हेडे स्वामित क्वर्ताओं / गारंव व्या 3 में संबर्ध न करने के लिग नाया गया है।	तथा अंश जो रिखत हैं, जिर निजी सड़क, 1/भी तिभुवन ार परनामी/भी वह भाग तथा क क परिसर, अर्व वधारण में है (र टेंग कंपनी /भ निल कुमार पर वह भाग तथा क क परिसर, अर्व- वधारण में है (र ररों/सह–दायि देत उधारकर्ताव र कहा जाता है यह स्पष्ट किय	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससी3 उपर्युक्त संपत्ति व श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससी3 ा एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति व त्वधारकों एवं स् त्वधारकों उक्त ा जाता है कि	01-08-202 0 नवीन नंबर ! वर्ग गफ है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के व हरियाणा में नेसर्स परनामी नेसर्स परनामी नेसर्स परनामी नेसर्स वी.एस. रं हहमतिकर्ताओं ८ गा राशि को स्तम	3 के अनुसार 319/11 व 51 119/11 व 51 119/11 व 51 119/11 व 51 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 00-51 में रिध्य रिधत है, जिस 998,373/- 9-2023 अनुसार 598,373/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिध्य रिधत है, जिस का सूचित किर को सूचित किर रंटरॉ, सह-व संख्या 4 में ज एवं अन्य	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित तकी पा 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार मा जाता है, उन ायितक्यारकों ए दर्शाई गई तिर्धि राशियों के साथ
गंक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी. 10वां तल, 29 संनापति वापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	प प प्रा में स्टब्स् में स्ट्रे से स्टब्स् में स्टब्स् में स्टब्स् में स्टब्स् में स्टिक्स् में स्ट्रे से स्ट में स्ट में स्ट से स्ट में स्ट में स्ट से स्ट में स्ट से स्ट स्	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुडगांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी 1 बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / 1 अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संप सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्रापत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्रापत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई तमत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक सं सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि दा प्रापत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई तेमत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक सं सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि दा की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है। तिम संख्या २ में जेल्लियितानुसार उधारकर्ताओं/बंधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंतर, स्तंम संस् कर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राषि का भुगतान सार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयांग्य शित की मुगतान की तिथि तक देय हो सकती ो पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ जवित कर्रवाई क	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम तति के समस्त वेदित वाणिज्यिय रेटेड के स्वामित है है) परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय रेटेड के स्वामित करतांओं / गारंद व्या अ से संबंधि न करने के लिए नाया गया है। है, का मुगता रने के लिए ब	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, i/ श्री त्रिभुवन ार परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन चघारण में है (त टेंग कंपनी / श वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन चघारण में है (त रसें / सह–दायि देव उधारकर्तार्थ यह स्पष्ट किय यह स्पष्ट किय ाच्य होगी । अर्हि	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससी3 उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससी3 । एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : त्त्वधारकों एवं स् तों / सह–उधा), क्योंकि उक्त ॥ जाता है कि जाता है को	01-08-202 0 नवीन नंबर ! वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के : 1) प्लॉट नंबर ! व हरियाणा में नेसर्स परनामी के : ने प्लॉट नंबर ! व हरियाणा में नेसर्स वी.एस. रं हहमतिकर्ताओं / गा राशि को स्तंम यदि भावी ब्य आर्सिल उपर्युक	3 के अनुसार 319 / 11 व 51 11 / 11 व 51 5,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथा एबस केरियर 598,373/- 9-2023 अनुसार 598,373/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथा एरेवर से, जिस् उठ-51 में रिथा के सुचित है, जिस उठ-51 में रिथा के सुचित हि, जिस उठ-51 में रिथा के सुचित हि, जिस उठ-51 में रिथा के सुचित हि, जिस के सुचित जिस के स्रिया 4 में के स्रिया 4 में के स्रिया 4 में के स्रिया 4 में	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेव 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित ह लिमिटेड द्वार या जाता है, उन गयित्वधारको ए द दर्शाई गई तिर्दि राशियों के साथ विवरणितानुसा
एसेट रिकंस्ट्रव्यान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड गंजीकृत कार्यालय : दि रूबी. 10वां तल, 29 संनापति वापत मार्ग, दावर (पश्चिम). मुंबई-400028. दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	प प प्रा में स्व प्रा हैं, वग द्वा प प प प प प प प प प प प प	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज रिथत एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित रेष्मम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी ! बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / आनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संप सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में f मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई तम्द्र संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में f मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि त्व की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है।। तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं /बंधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ सं कर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का मुराता- सार संबंधित ऋण खाता के संबंध में मुगतानयोग्य [रा, जो कि मुगतान की तिथि तक देय हो सकती ो पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई क ानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम तति के समस्त वेदित वाणिज्यिय रेटेड के स्वामित है है) परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय रेटेड के स्वामित करतांओं / गारंद व्या अ से संबंधि न करने के लिए नाया गया है। है, का मुगता रने के लिए ब	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, i/ श्री त्रिभुवन ार परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन चघारण में है (त टेंग कंपनी / श वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन चघारण में है (त रसें / सह–दायि देव उधारकर्तार्थ यह स्पष्ट किय यह स्पष्ट किय ाच्य होगी । अर्हि	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससी3 उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससी3 । एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : त्त्वधारकों एवं स् तों / सह–उधा), क्योंकि उक्त ॥ जाता है कि जाता है को	01-08-202 0 नवीन नंबर स वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ ? र. 11,8 30-0 के र 1 प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नेसर्स परनामी तेसर परनामी के 34, 30-0 के र ने स्वर स्व र 34, 30-0 के र ने स्वर स्व र 34, 30-0 के र ने स्वर स्व र 34, 30-0 के र ने स्वर स्व के र ने स्वर स्व प्र निवर स्व स्व हर्पयाणा में ने स्वर नि र्या स्व हर्पयाणा में ने स्वर नि र्य के र ने स्व र व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व	३ के अनुसार 519 / 11 व 51 519 / 11 व 51 ते अगे रमन व र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथार 50-51 में रिथार 598,373/- 9-2023 9-2023 अनुसार 598,373/- 9-2023 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथार 50-51 में रिथार के सुचित किट	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेव 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित ह लिमिटेड द्वार या जाता है, उन गयित्वधारको ए द र्साई गई तिर्दि राशियों के साथ विवरणितानुसा वली के अंतर्गत
ोटि।।। पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बांपत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरभाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, Normalized सीआईएन – U659999MH2002PLC134884	प प्राप्ति में स्टर्भ दी श्रेश्रे श्रे ह त प प श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के स रिथत एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित ते रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी ! बुजेष कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी ! बुजेष कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संप सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में f मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (नामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमार की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई स्वत्त संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में तिमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा वठी गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। तंभ संख्या २ में उल्लिखितानुसार उघारकर्ताओं / बंधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंतर, स्तंम संख कर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगता- सार संबंधित ऋण खाला के संबंध में भुगतानयोग्य' रारा संबेहात ऋण खाला के तिथि तक देय हो सकती ों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई क तानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिय भी : गुड़गांव	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम तति के समस्त वेदित वाणिज्यिय रेटेड के स्वामित है है) परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय रेटेड के स्वामित करतांओं / गारंद व्या अ से संबंधि न करने के लिए नाया गया है। है, का मुगता रने के लिए ब	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, i/ श्री त्रिभुवन ार परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन चघारण में है (त टेंग कंपनी / श वह भाग तथा : क परिसर, अर्बन चघारण में है (त रसें / सह–दायि देव उधारकर्तार्थ यह स्पष्ट किय यह स्पष्ट किय ाच्य होगी । अर्हि	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससी3 उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससी3 । एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : त्त्वधारकों एवं स् तों / सह–उधा), क्योंकि उक्त ॥ जाता है कि जाता है को	01-08-202 0 नवीन नंबर स वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ 20-06 र 30-07 के र 11 प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नैसर्स परनामी तार र. 344, 30-07 के र व हरियाणा में नैसर्स परनामी तार र. 344, 30-07 के र ते प्लॉट नंबर स् व हरियाणा में नैसर्स वी.एस. रं हमतिकर्ताओं / गा राशि को रत्तेम सके अंतर्गत f	३ के अनुसार 3 के अनुसार 519 / 11 व 511 519 / 11 व 511 6,46,551/- 9 -2023 9 -2024 9 -2023 9 -2024 9 -2024 1 -1	19ए/11 के रूग ट्रमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार मा जाता है, उन गयित्वधारकों ए दर्शाई गई तिमि विवरणितानुसा विवरणितानुसा विवरणितानुसा
	प प्राप्ति में स्टर्भ दी श्रेश्रे श्रे ह त प प श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के रिथत एवं उपरिथत, रतन गार्डन, गुडगांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित ते रेषम– विजय आहूजा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी ! बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / ! अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संप सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के एम में ति मिट है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (मीट है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीट है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि रा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि त्वत संपत्ति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मीटर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि स्व की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है। तंभ संख्या २ में उल्लिखितानुसार उघारकर्ताओं/बंधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंवर, स्तंम संस कर्ताओं के समक्ष वर्शितानुसार कुए राषी का भुगतान् सार संबंधित ऋण साता के संबंध में भुगतानयांग शि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकर्ती में पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्ध उचित कार्रवाई क तानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भ : गुडगांव : 09–11–2023	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम वेदित वाणिज्यि देढ के स्वामित देढ के स्वामित द्वीत वाणिज्यित देह के स्वामित वेदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित के स्वामित वेदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित हे के स्वामित वेदित वाणिज्यित हे के स्वामित वेदित के स्वामित वेदित वाणिज्यित वेदित के स्वामित वेदित वाणिज्यित वेदित के स्वामित वेदित के स्वामित वेदित वाणिज्यित वेदित के स्वामित वेदित के स्वामित वेदित के स्वामित वेदित वाणिज्यित वेदित के स्वामित वेदित के स्वामित वेदित वाणिज्यित वेदित वेदित विद्यासित वेदित वेदित विद्यासित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित तेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित तेदित वेदित वेदित वेदित तेदित के स्वामित तेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित वेदित तेदित के स्वामित तेदित वेदित वेदित वेदित वेदित तेदित वेदित वेदित वेदित वेदित तेदित वेदित	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, i/ श्री त्रिभुवन ार परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्व- वधारण में है (त टेंग कंपनी / श तनिल कुमार पर वह भाग तथा : क परिसर, अर्व- वधारण में है (त रगें / सह–दायि देत उधारकर्ता द कहा जाता है यह स्पष्ट किय यह स्पष्ट किया ाध्य होगी । अहि जा रहे हैं ।	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीव र एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति त्र प्रस्टेट, गुडगां अंश जो एससीव र एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति त्र प्रसंट – उधा उपर्युक्त संपत्ति त्र संपति उक्त ॥ जाता है कि वोनियम तथा उ	01-08-202 0 नवीन नंबर स वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के र 1 प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नेसर्स परनामी जेसर्स परनामी के प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नेसर्स वी.एस. रं हमतिकर्ताओं / गा राशि को रत्तम यदि भावी व्य प्रदि कं अंतर्गत f	३ के अनुसार 3 के अनुसार 519 / 11 व 511 519 / 11 व 511 6,46,551/- 9 -2023 9 -2024 9 -2023 9 -2024 9 -2024 1 -1	19ए/11 के रूग ट्रमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार मा जाता है, उन गयित्वधारकों ए दर्शाई गई तिमि विवरणितानुसा विवरणितानुसा विवरणितानुसा
	प प्रतिमं रूपी वीश्रं श्रं प्रति हैं, वग् विश्वं श्रं श्रं प्रति हैं, वग् प्रतः, स्मिति जिल्ला राज्य तः, समिति प्रति रित्ते प्रति समिति के प्रति रित्ते	तेमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के रिश्वत एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ॥मित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i रेषम– विजय आह्जा का घर। : एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी । बुजेष कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी ने पुत्व संपति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप संवटर – ओल्ड ज्यूडिवियत कॉम्टतेक्स के रूप में ति मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि र प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई (मामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. नामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. (मामी ग्रीड् क्र.ण सुविधा में भी बंधककृत की गई संवटर – ओल्ड ज्यूडिवियत कॉम्टतेक्स के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिवियल कॉम्टतेक्स के रूप में तिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिवियल कॉम्टतेक्स के रूप में तिमृत संयत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिवियल कॉम्टतेक्स के रूप में तिमृत संयत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूडिवियल कॉम्ततेक्स के रूप में तिमृत संयत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक सं संवटर – ओल्ड ज्यूितियत्त कॉम्ततेक्स के रूप में तिमृत संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उघारकर्ताओं/ वंधव वना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, रत्तम संख कर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का मुगतान सार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयाय प रिए, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती ो पर प्रतिमूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई क गानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भ : गुडगांव : 09–11–2023 एस्सेट सि	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम वित्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिग नेटेड के स्वामित ई है) परनामी / श्री अ पत्ती के समस्त विदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय करतांआं/ गारंद व्या 3 में संबंधि न करने के लिग वाया गया है। : है, का भुगता रने के लिए ब वे कदम उठाए करस्ट्रवद्दान पति बापत मार्ग,	तथा अंश जो स्थित हैं, जिर निजी सड़क, i/ श्री त्रिभुवन ार परनामी / श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वधारण में है (र टेंग कंपनी / श तनिल कुमार पर वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वधारण में है (र र कहा जाता है यह स्पष्ट किय यह स्पष्ट किया ष्य होगी । अहि जा रहे हैं।	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीव उपर्युक्त संपत्ति : भी त्रिभुवन कु नामी / श्री पुर जंश जो एससीव । एस्टेट, गुडमां त्र्या जो एससीव । एस्टेट, गुडमां श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पुर त्वधारकों एवं स् तंवधारकों एवं स् तंवधारकों एवं स् तंवधारकों एवं स् तंवधारकों एवं स् वेविवेयम तथा उ (इंडिया)	01-08-202 0 नवीन नंबर स वर्ग गज है, ज न, पूर्व- आ / र. 11,8 30-0 के र 1 प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नेसर्स परनामी जित र 34.0 के र ते प्लॉट नंबर स व हरियाणा में नेसर्स वी.एस. रं हमतिकर्ताओं / गा राशी को रत्तम यदि भावी व्य यदि भावी व्य यदि भावी व्य यदि भावी र्य यदि भावी व्य सके अंतर्गत f एसेट रिकंस्ट्रट	के अनुसार 519 / 11 व 511 519 / 11 व 511 ते अगे रमन व द. पी. चतुर्व 6,46,551/- 9-2023 6,46,551/- 9-2023 50-51 में रिथा रिथित है, जिस विष्यर्स केरियर 5098,373/- 9-2023 9-2023 अनुसार 5098,373/- 9-2023 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथा रियत है, जिस रियत है, जिस रियत है, जिस विपर्यर्स प्राइये- वा तालिका में वेरचित नियमा हा तालिका में वेरचित नियमा हरता. / – प्रा रान कंपनी (इ	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार न तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार ग जाता है, उन गयित्वधारकों एग दर्शाई गई तिपि राशियों के साथ विवरणितानुसा वविरणितानुसा वविरणि को अंतर्गत

नई दिल्ली

Quarter Ended

30-Sep-23 30-Jun-23 30-Sep-22 30-Sep-23 30-Sep

वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

अन्य बातों के साथ—साथ व्याख्यात्मक विवरण और रिमोट ई—वोटिंग के लिए निर्देश से शामिल

aar.co

1 कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री सुभाष पांडे की नियुक्ति

2 कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव

मतपत्र सचना कंपनी की वेबसाइट www.

संकल्प का प्रकार

विशेष

विशेष

क्र.सं संकल्प का संक्षिप्त विवरण

Financial

Year Ended

31-Mar-23

Half Year Ended

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में डाक मतपत्र सूचना का इलेक्ट्रोंनिक डिस्पैस 08 नवम्बर, 2023 को ई—नेल के माध्यम से केवल उन सदस्यों को किया गया है जिनके नाम 03 नवम्बर, 2023 (''कट—ऑफ तिथि'') को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएर)') और सेंट्रल दिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) तिमिटेड (''सीडीएसएल') से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं और जिनके ई—मेल पते कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

तदनुसार, डाक मतपत्र ज्यें और पूर्व-भुग्तेय व्यवसाय उत्तर लिफाफे के साथ डाक मतपत्र सूचना की मौतिक प्रति इस डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को नहीं मेजी जा रही है।

क मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 08 नवंबर, 2023 को पूरा हो गया है।

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली है। रिमोट ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया सूचना के 'नोट्स' सेक्शन के माग के रूप में दी गई है।

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिये गये निर्देशों को मली-मांति पढ़ लें और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए सूचना के 'नोट्स' सेक्शन में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी सहमति (एफओआर) या असहमति (खिलाफ) दर्ज करें।

	सुबह 9:00 बजे (मा.मा.स) मंगलवार, 14 नवंबर, 2023
ई—वोटिंग की समाप्ति	सायं 5:00 बजे (भा.मा.स) बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023

इस अवधि के दौरान कट—ऑफ तिथि अर्थात् (03 नवम्बर, 2023) को या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं। वोटिंग अधिकार की गणना कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मुल्य पर की जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के अनुसार ई—वोटिंग प्रक्रिया सभी व्यक्तिगत ढीमेट खाता धारकों के लिए वोटिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए ढिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी (ढीपी) के उनके डीमेट खातों / वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से सक्षम की गई है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई—वोटिंग सुविधा का लाम उठाने के लिए अपने संबंधित डीपी के पास अपना मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आईडी को अपडेट कराएं। रिमोट ई—वोटिंग की लॉगिन प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश डाक मतपत्र सूचना में दिये गये है।

निदेशक मंडल ने रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री साकेत शर्मा, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ4229), पार्टनर मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

वोट की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के पास अपनी रिपोर्ट जमा करेगा । संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ डाक मतपत्र (रिपोर ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से) के माध्यम से आयोजित वोटिंग का परिणाम 15 दिसम्बर, 2023 को या उससे पूर्व अध्यक्ष या ऐसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाएगा। इसे कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना बीएसई लिभिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई"), जहां कंपनी के हक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को दी जाएगी और यह उनकी संबंधित वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपतब्ध होगा। प्रस्तात, यदि अनुमोदित किया जाता है तो इसे रिपोट ई—वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् 13 दिसम्बर, 2023 को प्रमावी रूप से पारित माना जाएगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत कराने के लिए सदस्यों हेतु आवश्यक व्यवस्था की है। जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोघ है कि वे इसे पंजीकृत कराएं:

-) यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में घारित है तो इसे अपने ढीमेट खाते का रखरखाव करने वाले अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत कराएं ।
- ii) भौतिक प्रारूप में शेयर घारित करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई—मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत मरा गया एवं हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआए-1 (कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com पर उपलब्ध) को अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, यूनिट घामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, 4ई/2, झंवेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055, ई—मेलः rla@alankit.com के पास जमा करके इसके पंजीकृत/अपडेट कराएं।

किसी भी पूछताछ के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरघारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरघारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर कॉल कर सकते है या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज सकते हैं।

	कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
	हस्ता./—
	व्यपर्णा गोयल
स्थान : नई दिल्ली	कंपनी सचिव
दिनांकः 08.11.2028	सदस्यता सं. 22787